



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 32]

नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 6—अगस्त 12, 2005 (श्रावण 15, 1927)

No. 32]

NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 6—AUGUST 12, 2005 (SRAVANA 15, 1927)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 1

[PART III—SECTION 1]

[उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार के संलग्न और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं]

[Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, the Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India]

संघ लोक सेवा आयोग

नई दिल्ली-110069, दिनांक 9 मार्च 2005

सं. ए-32014/02/2004-प्रशा.-3--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 17.02.2005 के का.जा. सं. 21/09/2004-सी.एस.-1 (पार्ट) के अनुसरण में राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग के के. स. से. संवर्ग के लिए उनके नामांकन के अनुसरण में, वाणिज्य विभाग की नियमित सहायक श्रीमती बिमला मिज (चयन सूची-1994) को दिनांक 28.02.2005 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक संघ लोक सेवा आयोग के के. स. से. संवर्ग में तदर्थ आधार पर अनुभाग अधिकारी के रूप में पदोन्नत करते हैं।

2. तदर्थ आधार पर अनुभाग अधिकारी के रूप में श्रीमती बिमला मिज की पदोन्नति निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी :--

(i) तदर्थ पदोन्नतियां पूरी तरह कामचलाऊ व्यवस्था के तौर पर की गई हैं और इससे इन्हें इस ग्रेड में अनिश्चित आधार पर बने रहने या नियमित नियुक्ति की चयन सूची में शामिल होने या अनुभाग अधिकारी ग्रेड में वरिष्ठता का दावा करने का हक नहीं मिलेगा।

(ii) तदर्थ प्रबंध तब तक जारी रहेगा जब तक कि नियमित उम्मीदवार अनुभाग अधिकारी ग्रेड में वरिष्ठता कोटा तथा/या सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा (एल डी सी ई) के माध्यम से उपलब्ध न हो जाएं। उस स्थिति में जबकि तदर्थ नियुक्त व्यक्ति इन दोनों श्रेणियों में नियमित नियुक्ति के लिए अर्हता प्राप्त नहीं करते हैं तो उन्हें नियमित अनुभाग अधिकारियों के उपलब्ध होने पर सहायक ग्रेड में प्रत्यावर्तित कर दिया जाएगा।

एस. आनंदन
अवर सचिव (प्रशा.)

दिनांक 1 जून 2005

सं. ए-19014/10/2004-प्रशा.-1--राष्ट्रपति, श्री सक्केश प्रसाद सिंह, आई.सी.ए.एस. (95) को संघ लोक सेवा आयोग के कार्यालय में रु. 12,000-375-16,500/- के वेतनमान में दिनांक 01.06.2005 के पूर्वाह्न से चार वर्ष की अवधि के लिए अथवा आगामी आदेशों तक जो भी पहले हो, उपसचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

एस. आनंदन
अवर सचिव (प्रशा.)

दिनांक 7 जून 2005

सं. ए-19011/2/2003-प्रशा.-1--श्री पार्थसारथी मित्रा, भा. प्र. से. (हि. प्र.-78) जो कि वर्तमान में केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर संघ लोक सेवा आयोग में अपर सचिव के रूप में हैं, आयोग के कार्यालय में कार्यविधि पूरी हो जाने पर दिनांक 15.06.2005 के अपराह्न से कार्यमुक्त किया जाता है। तथापि, श्री पार्थसारथी मित्रा को, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 20.05.1987 के का.ज्ञा. सं. 27(38)ईओ/87(एसएम) की शर्तों के अनुसार 16 जून, 2005 से 12 अगस्त, 2005 तक (13, 14 व 15 अगस्त, 2005 के अनुयोजन के साथ) 58 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

श्री पार्थसारथी अपने अवकाश की समाप्ति पर अपने मूल संवर्ग अर्थात् हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला को इयूटी के लिए रिपोर्ट करेंगे।

एस. आनंदन
अवर सचिव (प्रशा.)

दिनांक 22 जून 2005

सं. ए-19012/1/2004-प्रशा.-3--राष्ट्रपति, श्री आर. के. शर्मा, डेस्क अधिकारी, के. स. से. संवर्ग, संघ लोक सेवा आयोग को के. सि. से. (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 48-ए की शर्तों के अनुसार 01.07.2005 पूर्वाह्न से, उनके अनुरोध पर, सरकारी सेवा से स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति की अनुमति प्रदान करते हैं।

एस. आनंदन
अवर सचिव (प्रशा.)

दिनांक 30 जून 2005

सं. ए-38012/1/05-प्रशा.-1--राष्ट्रपति, श्री के. सी. कटोच, केन्द्रीय सचिवालय सेवा के संघ लोक सेवा आयोग में उपसचिव के रूप में कार्यरत अधिकारी द्वारा अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर उन्हें दिनांक 30.06.2005 के अपराह्न से सरकारी सेवा से निवृत्ति की अनुमति प्रदान करते हैं।

एस. आनंदन
अवर सचिव (प्रशा.)

सं. ए-38012/1/05-प्रशा.-1--राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के संघ लोक सेवा आयोग में निजी सचिव के रूप में कार्यरत, श्री के. बी. आहूजा द्वारा अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर उन्हें दिनांक 30.06.2005 के अपराह्न से सरकारी सेवा से निवृत्त होने की अनुमति प्रदान करते हैं।

एस. आनंदन
अवर सचिव (प्रशा.)

दिनांक 1 जुलाई 2005

सं. ए-19011/6/05-प्रशा.-1--राष्ट्रपति, श्री वासुमित्रा, आई पी ओ एस (84), को संघ लोक सेवा आयोग के कार्यालय में रु. 14,300-400-18,300/- के वेतनमान में दिनांक 01.07.2005 के पूर्वाह्न से पांच वर्ष की अवधि के लिए अथवा आगामी आदेशों तक, इसमें जो भी पहले हो, संयुक्त सचिव (निदेशक स्तर) के रूप में नियुक्त करते हैं।

एस. आनंदन
अवर सचिव (प्रशा.)

सं. ए-19014/12/2003-प्रशा.-1--स्थापना अधिकारी का कार्यालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 29 जून, 2005 के का. ज्ञा. सं. 21/4/2003-ई.ओ. (एम.एम.-I) उनके मूल संवर्ग द्वारा समयपूर्व प्रत्यावसान के लिए उनके अनुरोध को स्वीकार किए जाने पर श्री कल्याण नाग, आई.सी.ओ.ए.एस. (92) को उप सचिव के पद से आयोग के कार्यालय द्वारा दिनांक 1 जुलाई, 2005 (पूर्वाह्न) से कार्यमुक्त किया जाता है ताकि वे अपने संवर्ग में पदोन्नति प्राप्त कर सकें। वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) के दिनांक 15 जून, 2005 के आदेश सं. ए-32013/2/2004-प्रशा.-1 की शर्तों के अनुसार उनको निदेशक (प्रशा.) प्रशुल्क आयोग को रिपोर्ट करने के लिए निदेश दिया जाता है।

एस. आनंदन
अवर सचिव (प्रशा.)

सं. ए-32011/1/05-प्रशा.-1--राष्ट्रपति, श्री एम. पी. सिंह, आई.सी.ओ.ए.एस. (88) उपसचिव को संघ लोक सेवा आयोग के कार्यालय में रु. 14,300-400-18,300/- के वेतनमान में दिनांक 01.07.2005 से उनकी नियुक्ति की शेष अवधि जो कि दिनांक 06.09.2006 तक होगी के लिए अथवा आगामी आदेशों तक, इसमें जो भी पहले हो, संघ लोक सेवा आयोग के कार्यालय में संयुक्त सचिव (निदेशक स्तर) के रूप में नियुक्त करते हैं।

श्री एम. पी. सिंह की केन्द्र में उनकी अवधि की गणना 07.09.2001 से की जाएगी।

एस. आनंदन
अवर सचिव (प्रशा.)

दिनांक 4 जुलाई 2005

सं. ए-19011/7/05-प्रशा.-1--राष्ट्रपति, श्री बीरेश कुमार, आई.ए.एस. (यू.पी. : 83) को संघ लोक सेवा आयोग में रु. 18,400-500-22,400/- के वेतनमान में दिनांक 04.07.2005 के पूर्वाह्न से पांच वर्ष की अवधि के लिए अथवा आगामी आदेशों तक जो भी पहले हो, अपर सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

एस. आनंदन
अवर सचिव (प्रशा.)

केन्द्रीय सतर्कता आयोग

नई दिल्ली, दिनांक 18 जुलाई 2005

सं. 2/39/05-प्रशासन--केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त एतद्वारा आयोग में निम्नलिखित निजी सहायकों को निजी सचिवों के पद पर वेतनमान रु. 6,500-200-10,500/- में तदर्थ रूप से दिनांक 15.07.2005 (पूर्वाह्न) से तीन माह की अवधि अथवा अगले आदेशों तक जो भी पहले हो, के लिए निम्न क्रम में नियुक्त करते हैं :--

- (i) श्री राज कुमार चौधरी
- (ii) श्री टी. जगन्नाथ राव
- (iii) श्रीमती तृप्ता अरोड़ा
- (iv) श्रीमती जसपाल कौर; तथा
- (v) श्री के. जगदीश बाबू

2. उपर्युक्त अधिकारियों की निजी सचिवों के पद पर नियुक्ति समय-समय पर संशोधित केन्द्रीय सतर्कता आयोग (स्टफ) नियमावली, 1964 के नियम 9 के अन्तर्गत पूर्णतः अस्थायी तथा तदर्थ आधार पर है तथा इससे नियमित नियुक्ति के लिए उन्हें कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता है।

मांगे लाल

उप सचिव

कृते केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त

गृह मंत्रालय

(महानिदेशालय, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल)

नई दिल्ली-110003, दिनांक 15 जुलाई 2005

सं. ओ.दो-3941/2005/डी.सी. कार्मिक-1--इस महानिदेशालय के आदेश संख्या-डी. नौ.-15/2001-सीआरसी दिनांक 22 जून 2005 के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा श्री ए. जी. स्वामी, सहायक कमाण्डेन्ट, अब उप कमाण्डेन्ट (इरला-3941) भुप केन्द्र, के.रि.पु. बल, आवडी का अनिवार्य सेवानिवृत्ति हेतु आदेश पारित किया गया। तदनुसार उपरोक्त अधिकारी ने अपने पद से कार्यभार दिनांक 24.06.2005 (अपराह्न) में त्याग दिया है। अतः इनका नाम इस बल की नफरी से दिनांक 24.06.2005 (अपराह्न) से निकाला जाता है।

जे. एन. शर्मा

अपर पुलिस उप महानिरीक्षक (कार्मिक-1)

दिनांक 16 जुलाई 2005

सं. ओ.दो-1360/77-2005(कार्मिक-1)--इस महानिदेशालय के आदेश संख्या-डी. नौ.-15/2001-सीआरसी दिनांक 22 जून 2005 के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा श्री एस. रामालिंगम, कमाण्डेन्ट (इरला-1546), आर.टी.सी.-दो, के.रि.पु. बल, आवडी का अनिवार्य सेवानिवृत्ति हेतु आदेश पारित किया गया। तदनुसार उपरोक्त अधिकारी ने अपने पद से कार्यभार दिनांक 25.06.2005 (अपराह्न) में त्याग दिया है। अतः इनका नाम इस बल की नफरी से दिनांक 25.06.2005 (अपराह्न) से निकाला जाता है।

जे. एन. शर्मा

अपर पुलिस उप महानिरीक्षक (कार्मिक-1)

महानिदेशालय

केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल

नई दिल्ली-110003, दिनांक 18 जुलाई 2005

सं. ई-16015/(2)2/2003/कार्मिक-1/17--राष्ट्रपति, निम्नलिखित निरीक्षक/कार्य. को नियमित पदोन्नति देते हुए सहायक कमाण्डेन्ट/कार्य. के पद पर उनके नामों के आगे लिखी गई तारीखों से के.ओ.सु. बल में रुपये 8,000-275-13,500/- के वेतनमान पर नियुक्त करते हैं :--

क्रम सं.	अधिकारी का नाम	कार्यालय/यूनिट जहां कार्यभार ग्रहण किया	नियमित आधार पर सहायक कमाण्डेन्ट/कार्य. के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि
1	2	3	4
	सर्वश्री		
1.	सुरेन्द्र सिंह	5वीं आरक्षित वाहिनी, गाजियाबाद	21.04.2005 (अपराह्न)
2.	एम. उमर खान	एसपीएम, हौशंगाबाद	16.04.2005 (पूर्वाह्न)
3.	ए. के. वर्मा	केएसटीपीपी, कोरबा	17.05.2005 (अपराह्न)
4.	जी. एस. पटवाल	बीसीसीएल, धनबाद	01.06.2005 (पूर्वाह्न)
5.	बाबू राम राणा	बीसीसीएल, धनबाद	11.05.2005 (पूर्वाह्न)
6.	मो. सुहेल सिद्दिकी	केटीपीएस, कोटा	02.05.2005 (पूर्वाह्न)

1	2	3	4
7.	जय प्रकाश सिंह	केएचएसटीपीपी, कहलगांव	16.04.2005 (पूर्वाह)
8.	यशपाल	एनएपीएस, नरोरा	16.04.2005 (पूर्वाह)
9.	प्रकाश चन्द त्यागी	सीसीएल, करगली	24.05.2005 (पूर्वाह)
10.	सिधु नाथ सिंह	टीटीपीपी/एनटीपीसी, टण्डा	30.05.2005 (पूर्वाह)
11.	लीमा राज पाध्या	आरटीसी, देवली-I	24.05.2005 (पूर्वाह)
12.	जी. के. कश्यप	द्वितीय आ.वा., दिल्ली	23.06.2005 (पूर्वाह)
13.	राम सुरेश राव	पीटीपीपी, परीछा	16.04.2005 (पूर्वाह)
14.	एस. पंकराज	एचएएल, पीपरी	29.04.2005 (अपराह)
15.	अनिल किशोर	एनटीपीसी, सीपत (बिलासपुर)	30.04.2005 (पूर्वाह)
16.	आर. कंनाराज	एचपीसीएल, मुम्बई	16.05.2005 (पूर्वाह)
17.	विभीषण सिंह	एमपीटी, गोवा	18.04.2005 (पूर्वाह)
18.	हरजिंदर सिंह उप्पल	आरटीसी, भिलाई	29.04.2005 (पूर्वाह)
19.	के. बी. जंगा रेड्डी	ओएनजीसी, नरसापुर	21.05.2005 (पूर्वाह)
20.	ए. बालकृष्णन	एसडीएससी, शार	18.04.2005 (पूर्वाह)
21.	के. करोप्पन	केएपीएस, ककरापार	28.04.2005 (पूर्वाह)
22.	शेख निजामुद्दीन	आरटीसी, आरकोणम	27.04.2005 (पूर्वाह)
23.	बी. बी. कृष्णैया	वीएसपी, विशाखपट्टनम	05.05.2005 (पूर्वाह)
24.	एच. आर. मिनहास	भुन्नतर (कुल्लू) एयरपोर्ट	10.05.2005 (पूर्वाह)
25.	राम स्वामी परदेसी	वीएसटीपीएस, विन्धनगर	03.05.2005 (पूर्वाह)
26.	के. आई. जोसेफ	आरटीसी, आरकोणम	29.04.2005 (पूर्वाह)
27.	विष्णु कुमार यमुना	भुवनेश्वर एयरपोर्ट	26.04.2005 (पूर्वाह)
28.	श्याम प्रसाद सिन्हा	पीपीटी, पारादीप	30.05.2005 (पूर्वाह)
29.	सुब्रता कुमार साहा	टीटीपीएस (एनटीपीसी), तालचर	10.05.2005 (पूर्वाह)
30.	बलदेव सिंह भिन्दर	आरटीसी, बड़वाहा	16.04.2005 (पूर्वाह)
31.	धनश्याम शर्मा	ओएनजीसी, मुम्बई	25.04.2005 (पूर्वाह)
32.	बनशीधर सुन्दा	एचडीसी, हल्दीया	11.05.2005 (पूर्वाह)
33.	सुकराम पाल	बीसीसीएल, धनबाद	16.05.2005 (पूर्वाह)
34.	पी. के. ज्वाय	आईजीआई एयर पोर्ट, दिल्ली	04.05.2005 (पूर्वाह)
35.	के. गोपाल कृष्णन	आईजीआई एयरपोर्ट, दिल्ली	05.05.2005 (अपराह)
36.	जी. एन. पुरकायस्थ	कोलकाता एयर पोर्ट	11.05.2005 (पूर्वाह)
37.	के. पी. गोपीनाथन	एएलसी नवेली	06.05.2005 (पूर्वाह)
38.	बी. के. गान्धा	आईओसी, बरौनी	26.05.2005 (पूर्वाह)
39.	सुरेन्द्र सिंह मनराल	जेडओडब्ल्यू, साकेत	27.04.2005 (अपराह)

1	2	3	4
40.	एन. के. बुच्चस	आई ओ सी, हल्दीवा	24.05.2005 (पूर्वाह)
41.	अरविन्द चौहान	आईजीआई एयरपोर्ट, दिल्ली	24.04.2005 (अपराह)
42.	गोकल चन्द	आरटीसी, देवली-II	16.04.2005 (पूर्वाह)
43.	बी. शशिधरन पिल्लै	बीसीसीएल, धनबाद	16.05.2005 (पूर्वाह)
44.	सी. एल. लिंगवाल	जेडडब्ल्यूओ, कोलकाता	13.05.2005 (पूर्वाह)
45.	एन. मुकुन्दन	एचपीसीएल (बीआर), विजाग	09.05.2005 (पूर्वाह)
46.	मोहन सिंह विष्ट	आरटीसी, बड़वाहा	20.06.2005 (पूर्वाह)
47.	नन्द किशोर	सीएनपी, नासिक	10.05.2005 (पूर्वाह)
48.	राज नाथ सिंह	एटीपीवी, अनपरा	30.04.2005 (पूर्वाह)
49.	गुलशेर अली	ओटीएचपीपी, ओबरा	06.05.2005 (पूर्वाह)
50.	सतबीर सिंह	समूह मुख्यालय, चंडीगढ़	02.05.2005 (पूर्वाह)
51.	के. तमिल सेलवन	बीआरपीएल, बोगाईगंघ	29.04.2005 (पूर्वाह)
52.	सुरेश चन्द्र	अमरतला एयरपोर्ट	16.04.2005 (अपराह)
53.	यशवंत सिंह	आईजीआई एयरपोर्ट, दिल्ली	20.04.2005 (पूर्वाह)
54.	एस. एन. शुक्ला	गोवा एयरपोर्ट	18.04.2005 (पूर्वाह)
55.	बनमाली राउत	एनएसपीसीएल, दुर्गापुर	30.05.2005 (पूर्वाह)
56.	के. एस. टी. नायर	कालीकट एयरपोर्ट	19.05.2005 (पूर्वाह)
57.	पी. के. कुस्तप्पा	बीएचईएल, भोपाल	02.05.2005 (पूर्वाह)
58.	के. सी. फात्रा	एचटीपीसी/टीएसटीपीपी, कनौहा	28.04.2005 (पूर्वाह)
59.	एस. ए. खान	काराण्सी एयरपोर्ट	11.05.2005 (पूर्वाह)
60.	एम. डी. मूर्ति	सीएचपीटी, चेन्नई	20.04.2005 (पूर्वाह)
61.	एमडी. अल्लाउद्दीन	यूसीआईएल, जसुगुडा	13.06.2005 (पूर्वाह)
62.	आई. एस. बोयांला	पटना एयरपोर्ट	13.06.2005 (अपराह)
63.	गुरु इकबाल सिंह	डीएचईपी, दुलहस्ती	25.04.2005 (पूर्वाह)
64.	हरपाल सिंह	जीओएफ, गाजीपुर	09.05.2005 (पूर्वाह)
65.	जी. लक्ष्मण अलोने	ओएनजीसी, अंकलेश्वर	29.04.2005 (अपराह)
66.	हरवीर सिंह	मुम्बई एयरपोर्ट	06.05.2005 (पूर्वाह)
67.	सुखवीर सिंह	एचपीसी, कैगा	02.05.2005 (पूर्वाह)
68.	देसू राम	एनएफएल, नांगल	29.04.2005 (पूर्वाह)
69.	विजय सिंह	एनटीपीसी/बीएसटीपीपी, बाड़	30.05.2005 (पूर्वाह)
70.	रामजियावन	एसएससी (पीआरएल), अहमदाबाद	24.05.2005 (पूर्वाह)
71.	देबिया औरांव	बीटीपीएस (जीवीसी), बोकारो	29.04.2005 (पूर्वाह)
72.	पी. कलियामूर्ति	6वीं आ.का. आस्कोजम	11.05.2005 (पूर्वाह)

1	2	3	4
73.	सी. कथीरिसन	एनएमपीटी, मैंगलोर	18.04.2005 (पूर्वाह)
74.	जे. एच. राज	एनएलसी, नेवली	11.05.2005 (पूर्वाह)
75.	हरधन दास	ओपीएस, नूनमाटी	23.05.2005 (अपराह)
76.	ए. शंकरण	वीएससीसी, थुम्बा	12.05.2005 (पूर्वाह)
77.	के. एम. कृष्णन कुट्टी	वीएससीसी, थुम्बा	26.04.2005 (पूर्वाह)
78.	पी. के. सुरेश बाबू	एनटीपीसी, कायामकुलम	18.04.2005 (पूर्वाह)
79.	आई. एस. नबीयाल	सीसीएल, करगली (धोरी)	24.05.2005 (पूर्वाह)
80.	के. के. थंकप्पन	एनएलसी, नेवली	24.05.2005 (पूर्वाह)
81.	के. के. मोहनन	एनएलसी, नेवली	07.05.2005 (पूर्वाह)
82.	एम. राजामोहनन	केआईओसीएल, कुद्रेमुख	18.04.2005 (पूर्वाह)
83.	एम. आर. भगत	आरएसपी, राउरकेला	16.04.2005 (पूर्वाह)
84.	महेन्द्र डायमारी	ओएनजीसी, जोरहाट	21.04.2005 (पूर्वाह)
85.	एम. कोरकेटा	आरएसपी, राउरकेला	04.05.2005 (पूर्वाह)

ह./- अपठनीय
महानिदेशक

सं. ई-15014/1/2005/कार्मिक-II/2149--सक्षम प्राधिकारी निम्नलिखित सहायक कमाण्डेन्टों (का./जेएओ) की परिवीक्षा अवधि संतोषजनक रूप से पूरी होने की घोषणा करते हैं तथा सीधे भर्ती हुए सहायक कमाण्डेन्टों (कार्य.) के मामले में उनके अपने-अपने रैंक में नीचे दिए गए विवरण के अनुसार स्थाई रूप से नियुक्त करते हैं :-

क्रम सं.	अधिकारी का नाम	रैंक	सहायक कमाण्डेन्ट के पद पर पदोन्नति/नियुक्ति की तारीख	परिवीक्षा अवधि संतोषजनक पूरी हुई	स्थायीकरण की तारीख, यदि कोई है	यूनिट
1	2	3	4	5	6	7
सर्वश्री						
1.	ए. पी. सिंह	स.क./कार्य.	22.12.2002 (अपराह)	22.12.2004	23.12.2004	नालको, दामनजोड़ी
2.	सुश्री निती मित्तल	-वही-	22.12.2002	21.12.2004	22.12.2004	बीटीपीएस, बदरपुर
3.	के. एल. गोबा	-वही-	29.04.2002 (अपराह)	29.04.2005	--	शार केन्द्र
4.	आर. जी. शर्मा	-वही-	20.02.2003	19.02.2005	--	5 आ.वा., गाजियाबाद
5.	बी. एन. खड़कवाल	-वही-	11.02.2003	10.02.2005	--	पी एंड एचएस, चंडीगढ़
6.	आर. के. त्यागी	-वही-	31.01.2003	30.01.2005	--	केऔसुब मुख्यालय
7.	ए. एल. शर्मा	-वही-	03.03.2003	02.03.2005	--	शेप सेवा-II

1	2	3	4	5	6	7
8.	जी. एल. स्वामी	स.क./कार्य.	03.02.2003	02.02.2005	22.12.2004	बीईएससीएल, भिलाई
9.	चांद सिंह	-वही-	04.02.2003	03.02.2005	--	डीएमपी, पन्ना
10.	जे. पी. शर्मा	-वही-	15.03.2003	14.03.2005	--	बीपीसीएल, मुम्बई
11.	ए. एन. मून	-वही-	04.02.2003	03.02.2005	--	आरटीसी, आरकोणम
12.	के.एल. सिंह	-वही-	01.02.2003	31.01.2005	--	केआईओएम, किरीबुरू
13.	के. एम. संत	-वही-	31.01.2003	30.01.2005	--	पीटीपीएस, पतरातू
14.	रंजीत सिंह	-वही-	14.02.2003	13.02.2005	--	टीएचईपी, बनवासा
15.	जगजीवन प्रसाद	-वही-	17.02.2003	16.02.2005	--	गेल पाता
16.	वी. एस. विरोले	स.क./जेएओ	27.05.2003	26.05.2005	--	मुम्बई एयरपोर्ट
17.	जी. सी. चट्टोपाध्याय	-वही-	02.06.2003	01.06.2005	--	उ.पू. से. मुख्या., कोलकाता
18.	सी. एल. राम	-वही-	06.06.2003	05.06.2005	--	6आ.वा., आरकोणम
19.	एस. एन. मांझी	-वही-	11.06.2003	10.06.2005	--	पूर्वी सेक्टर, पटना

ह./- अपठनीय
महानिदेशक

वित्त मंत्रालय
(आर्थिक कार्य विभाग)
भारत प्रतिभूति मुद्रणालय

नाशिकरोड, दिनांक 16 जुलाई 2005

सं. 431/स्थापना-18-1--निम्नलिखित निरीक्षक नियंत्रण को उप
नियंत्रण अधिकारी पद पर नियमित आधार पर निम्न दिनांक से वेतनमान
रु. 6,500-200-10,500/- से पदोन्नत किया जाता है :-

- | | | |
|----|--------------------|------------|
| 1. | श्री ए. टी. सोनवणे | 14.07.2005 |
| 2. | श्री पी. जी. घागरे | 12.07.2005 |
| 3. | श्री वाई. एम. शौचे | 12.07.2005 |

उक्त नियमित पदोन्नति उपरोक्त दिनांक से दो वर्ष की अवधि तक
होगी।

प्रकाश नारायण
महाप्रबन्धक

भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा विभाग
प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) का कार्यालय, केरल

तिरुवनन्तपुरम, दिनांक 20 जुलाई 2005

सं. ले.प./प्रशासन-III/9-1/खंड-II--निम्नलिखित लेखापरीक्षा
अधिकारियों को अपने नाम के सामने दिखाई गई तारीख से

8,000-275-13,500/- रु. के वेतनमान पर सहायक लेखापरीक्षा
अधिकारियों के रूप में पदोन्नति की गई है :-

क्रम सं.	नाम	पदभार ग्रहण करने की तारीख
1	2	3
	श्री/श्रीमती	
1.	पी. पी. श्रीधरन	03.01.2005 (पूर्वाह)
2.	वी. एन. कृष्णनकुट्टि नायर	03.01.2005 (पूर्वाह)
3.	एन. रामचंद्रन नायर (सं. 5)	03.01.2005 (पूर्वाह)
4.	पी. अरविन्दाक्षन (सं. 2)	03.01.2005 (पूर्वाह)
5.	एन. पार्थसारथी	03.01.2005 (पूर्वाह)
6.	पी. अरविन्दाक्षन (सं. 1)	03.01.2005 (पूर्वाह)
7.	एन. शशिधरन नायर	03.01.2005 (पूर्वाह)
8.	एम. के. सत्यवागीश्वरन	03.01.2005 (पूर्वाह)
9.	के. हरि (सं. 2)	03.01.2005 (पूर्वाह)
10.	आर. शशिधरन पिल्लै	03.01.2005 (पूर्वाह)
11.	ओ. एम. मात्यु	03.01.2005 (पूर्वाह)
12.	एम. कुर्यन	03.01.2005 (पूर्वाह)

1	2	3
13.	बी. पी. सोमशेखरन	03.01.2005 (पूर्वाह)
14.	एन. श्रीनिवासन (सं. 2)	03.01.2005 (पूर्वाह)
15.	के. अरविन्दाक्षन (सं. 2)	03.01.2005 (पूर्वाह)
16.	के. अनिलकुमार (सं. 2)	03.01.2005 (पूर्वाह)
17.	पी. के. बालन (सं. 2)	01.04.2005 (पूर्वाह)
18.	के. जे. वर्गीस	01.04.2005 (पूर्वाह)

दिवाकरन पिल्लै
वरिष्ठ महालेखाकार (प्रशासन)

सं. ले.प./प्रशासन-III/9-1/खंड-II--निम्नलिखित सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों को अपने नाम के सामने दिखाई गई तारीख से 7,500-250-12,000/- रु. के वेतनमान पर लेखापरीक्षा अधिकारियों के रूप में पदोन्नति की गई है :-

क्रम सं.	नाम	पदभार ग्रहण करने की तारीख
	श्री/श्रीमती	
1.	के. वी. दिनमणी	02.08.2004 (पूर्वाह)
2.	फिलिप तैम्स	02.08.2004 (पूर्वाह)
3.	के. पी. केशवन नायर	01.10.2004 (पूर्वाह)
4.	ए. मानुषल	01.10.2004 (पूर्वाह)
5.	ओ. वी. सिसिली	01.11.2004 (पूर्वाह)
6.	एम. टी. आन्टनी	01.11.2004 (पूर्वाह)
7.	के. अब्दुल लतीफ	01.11.2004 (पूर्वाह)
8.	के. ए. कुर्याक्कोस	01.11.2004 (पूर्वाह)
9.	एन. श्रीधरन नंजुत्तिरी	17.12.2004 (अपराह)
10.	पी. गोविन्दन नायर	03.01.2005 (पूर्वाह)
11.	एम. रामचंद्रन पिल्लै	03.01.2005 (पूर्वाह)
12.	वी. जे. जोसफ (सं. 3)	03.01.2005 (पूर्वाह)
13.	एंदिरा देव	01.02.2005 (पूर्वाह)
14.	एन. रवीन्द्रनाथ	01.04.2005 (पूर्वाह)
15.	आर. राधाकृष्णन	01.06.2005 (पूर्वाह)
16.	एस. नीलकण्ठ अय्यर	01.06.2005 (पूर्वाह)

दिवाकरन पिल्लै
वरिष्ठ महालेखाकार (प्रशासन)

सं. ले.प./प्रशासन-III/9-1/खंड-II--निम्नलिखित अनुभाग अधिकारियों को अपने नाम के सामने दिखाई गई तारीख से 7,450-225-11,500/- रु. के वेतनमान पर सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों के रूप में पदोन्नति की गई है :-

क्रम सं.	नाम	पदभार ग्रहण करने की तारीख
	श्री/श्रीमती	
1.	के. रामचंद्रन (सं. 2)	05.07.2004 (पूर्वाह)
2.	ई. वी. सामुवेल	15.07.2004 (पूर्वाह)
3.	एस. मोहम्मद माहीन	02.08.2004 (पूर्वाह)
4.	एम. पी. हमसा	02.08.2004 (पूर्वाह)
5.	एन. नारायणन एब्रातिरी	02.08.2004 (पूर्वाह)
6.	के. तुलसीधरन	10.09.2004 (पूर्वाह)
7.	जी. रामचंद्रन नायर	24.09.2004 (पूर्वाह)
8.	ए. के. वसन्ता	01.10.2004 (पूर्वाह)
9.	ओ. बालचंद्रन	01.11.2004 (पूर्वाह)
10.	एम. श्रीशङ्कुमार	01.11.2004 (पूर्वाह)
11.	एस. क्लेमेंट	01.11.2004 (पूर्वाह)
12.	ए. मोहनदास	10.12.2004 (अपराह)
13.	के. अलक्स सेब्यर	03.01.2005 (पूर्वाह)
14.	पी. जी. रमेश	03.01.2005 (पूर्वाह)
15.	मरियाम्मा मात्तु	03.01.2005 (पूर्वाह)

दिवाकरन पिल्लै
वरिष्ठ महालेखाकार (प्रशासन)

खान मंत्रालय
(भारतीय खान ब्यूरो)

नागपुर, दिनांक 19 जुलाई 2005

सं. ए-19011/211/2005-स्था.ए.--विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिश पर श्री बी. बी. तिवारी, खनिज अधिकारी (आ.) को भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर में दिनांक 04.07.2005 (पूर्वाह) से सहायक खनिज अर्थशास्त्री (आ.) के पद पर पदोन्नति की जाती है।

एस. के. बातव
वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी
कृते महानियंत्रक

दिनांक 20 जुलाई 2005

सं. ए-19011/231/2005-स्था.ए.--विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिश पर श्री ए. जी. पाटुक्ले, खनिज अधिकारी (आ.) को

भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर में दिनांक 04.07.2005 (पूर्वाह्न) से सहायक खनिज अर्थशास्त्री (आ.) के पद पर पदोन्नति की जाती है।

एस. के. बातव
वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी
कृते महानियंत्रक

दिनांक 21 जुलाई 2005

सं. ए-19011/279/99-स्था.ए.--विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिश पर डॉ. अब्दुल रहमान, वरिष्ठ खनन भूवैज्ञानिक की दिनांक 04.07.2005 (पूर्वाह्न) से दक्षिण आंचलिक कार्यालय, बंगलौर में क्षेत्रीय खनन भूवैज्ञानिक के पद पर पदोन्नति की जाती है।

एस. के. बातव
वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी
कृते महानियंत्रक

भारतीय सर्वेक्षण विभाग
(महासर्वेक्षक का कार्यालय)

देहरादून-248001, दिनांक 18 जुलाई 2005

सं. सी-249/707--निम्नलिखित ग्रुप 'सी' डिबीजन-I (सर्वेक्षकों/सर्वेक्षण सहायकों) की भारतीय सर्वेक्षण विभाग में उनके नाम के सम्मुख दी गई तिथि से नियमित आधार पर अधिकारी सर्वेक्षक ग्रुप 'बी' के पद पर रुपये 6,500-200-10,500/- के वेतनमान में पदोन्नति की जाती है :-

क्रम सं.	नाम	पदोन्नति की तिथि
1	2	3
1.	श्री एम. के. मिश्रा	31.12.2004
2.	श्री जी. एल. कुकरेती	31.12.2004
3.	श्री सुशील मोहन	31.12.2004
4.	श्री एम. पी. भट्ट	05.01.2005
5.	श्री एन. के. क्षेत्रीय	31.12.2004
6.	श्री जी. सी. भट्टाचार्य	31.12.2004
7.	श्री एम. आर. पॉल	31.12.2004
8.	श्री डी. पी. बहुगुणा	31.12.2004
9.	श्री जय सिंह	31.12.2004
10.	श्री रतन डे सरकार	03.01.2005
11.	श्री विजय सिंह	31.12.2004
12.	श्री वी. उन्नीकृष्णन	31.12.2004
13.	श्री ए. एस. भटनागर	31.12.2004

1	2	3
14.	श्री हरबीर सिंह	31.12.2004
15.	श्री डी. सी. मंगगाई	31.12.2004
16.	श्री एम. पारवाथीसम	31.12.2004
17.	श्री टी. कृष्णा कुमार	31.12.2004
18.	श्री सरदार सिंह	31.12.2004
19.	श्री डी. के. खन्ना	31.12.2004
20.	श्री ए. के. कोल	31.12.2004
21.	श्री शिव सिंह रावत	31.12.2004
22.	श्री डी. डी. बरूवा	06.01.2005
23.	श्री बी. एस. असवाल	31.12.2004
24.	श्री एल. एन. छिन्नर	31.12.2004
25.	श्री एम. एम. परमार	31.12.2004
26.	श्री दिलीप कुमार	31.12.2004
27.	श्री संतोष अग्रवाल	31.12.2004
28.	श्री वाई. एस. रावत	06.01.2005
29.	श्री के. एस. राना	31.12.2004
30.	श्री एन. के. गुप्ता	31.12.2004
31.	श्री के. श्रीवत्सा	31.12.2004
32.	श्री बी. बी. सक्सेना	31.12.2004
33.	श्री एम. एल. भट	31.12.2004
34.	श्री पी. सी. बोरोले	31.12.2004
35.	श्री प्रीतम सिंह	31.12.2004
36.	श्री जगन्धु मुदुली	05.01.2005
37.	श्री एम. के. आर. पिल्लई	31.12.2004
38.	श्री सी. के. मुखर्जी	31.12.2004
39.	श्री एस. बी. उनियाल	31.12.2004
40.	श्री एस. के. जोशी	31.12.2004
41.	श्री संतोष कुमार	31.12.2004
42.	श्री मोहिन्दर सिंह	31.12.2004
43.	श्री के. सी. ओझा	06.01.2005
44.	श्री विजय कुमार गैरोला	31.12.2004
45.	श्री राम कुंवर	19.01.2005
46.	श्री एस. पी. बडोनी	31.12.2004

1	2	3
47.	श्री एम. के. तिवारी	31.12.2004
48.	श्री पुरुषोत्तम जैना	31.12.2004
49.	श्री जी. एन. पी. राव (अनुसूचित जाति)	31.12.2004
50.	श्री दीप चन्द (अनुसूचित जाति)	10.01.2005
51.	श्री बी. एम. परमार (अनुसूचित जाति)	31.12.2004
52.	श्री योगेन्द्र कुमार (अनुसूचित जाति)	31.12.2004
53.	श्री धरमपाल सिंह (अनुसूचित जाति)	31.12.2004
54.	श्री जी. बी. नगरारे (अनुसूचित जाति)	31.12.2004
55.	श्री राजेन्द्र सिंह (अनुसूचित जाति)	31.12.2004

एम. गोपाल राव
मेजर जनरल
भारत के महासर्वेक्षक

दिनांक 25 जुलाई 2005

सं. सी-305/718-ए--निम्नलिखित कार्यालय अधीक्षकों को भारतीय सर्वेक्षण विभाग में स्थापना एवं लेखा अधिकारी (सामान्य केन्द्रीय सेवा ग्रुप 'बी') के पद पर रुपये 7,450-225-11,500/- के वेतनमान में उनके नाम के सम्मुख दर्शाई गई तिथि से नियमित आधार पर पदोन्नत किया जाता है :--

क्रम सं.	नाम	पदोन्नति की तिथि
1	2	3
1.	श्री जी. एल. भील (अनुसूचित जन जाति)	21.02.2005
2.	श्री ए. जे. बेबी	16.02.2005
3.	श्री बी. एल. यादव	01.03.2005
4.	श्री एल. एन. शर्मा	01.04.2005
5.	श्री वी. प्रभाकर	01.04.2005
6.	श्री एम. एन. छिब्बर	02.04.2005
7.	श्री एन. सी. प्रसाद	02.05.2005
8.	श्री आर. सी. वर्मा	29.06.2005
9.	श्री माधो सिंह रावत	01.06.2005
10.	श्री एच. एस. गुलाटी	01.06.2005

एम. गोपाल राव
मेजर जनरल
भारत के महासर्वेक्षक

सं. सी-324/594--निम्नलिखित सैनियर रिप्रोग्राफरों को भारतीय सर्वेक्षण विभाग में उनके नाम के सम्मुख दी गई तिथि से तदर्थ आधार पर सहायक प्रबन्धक (मानचित्र पुनरुत्पादन) सामान्य केन्द्रीय सेवा ग्रुप 'बी' के पद पर रुपये 6,500-200-10,500/- के वेतनमान में पदोन्नत किया जाता है :--

क्रम सं.	नाम	पदोन्नति की तिथि
1.	श्री के. हनुमन्था राव (अनुसूचित जन जाति)	11.04.2005
2.	श्री सी. एस. थापा	31.03.2005
3.	श्री बी. पी. शर्मा	31.03.2005

एम. गोपाल राव
मेजर जनरल
भारत के महासर्वेक्षक

कृषि मंत्रालय

(कृषि एवं सहकारिता विभाग)

वनस्पति संरक्षण, संगरोध एवं संग्रह निदेशालय

फरीदाबाद-121001, दिनांक 22 जुलाई 2005

सं. 7-10/2004-प्रशा. प्रथम--वनस्पति संरक्षण, संगरोध एवं संग्रह निदेशालय, फरीदाबाद के श्री सी. सी. सम्भारकर, वनस्पति अधिकारी (को. वि.) का दिनांक 19.05.2005 को निधन है।

मोहन प्रकाश
उप सचिव एवं मुख्य प्रशासनिक अधिकारी

भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र

मुम्बई-400085, दिनांक 19 जुलाई 2005

शुद्धि-पत्र

सं. पीडी/7(17)/2004-आर-4/907--इस अनुसंधान केन्द्र के दिनांक 14 फरवरी, 2005 की समसंख्यक अधिसूचना द्वारा अधिसूचित, भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र की श्रीमती अरुणा कदम, वैज्ञानिक सहायक को वैज्ञानिक अधिकारी/इंजीनियर ग्रेड एसबी के रूप में इसी अनुसंधान केन्द्र में नियुक्ति की प्रभावी तिथि को संशोधित कर 16 अगस्त, 2004 (पूर्वाह्न) के बदले 1 मई, 2005 (पूर्वाह्न) के अनुसार पढ़ा जाए।

के. सी. दिवाकरन
उप स्थापना अधिकारी

परमाणु ऊर्जा विभाग

मुम्बई-400001, दिनांक 19 जुलाई 2005

सं. 20/3(1)/2004-सीसीएस/वाल्सू-11/30--राष्ट्रपति, इस विभाग के श्री नेल्लामट्टम जोसेफ सायमन, प्रशासन अधिकारी-II (वेतनमान रु. 7,500--12,000/-), भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र, मुम्बई को दिनांक 30.06.2005 के पूर्वाह्न से भावी आदेश होने तक भारी पानी बोर्ड, मुम्बई में प्रशासन अधिकारी-III (वेतनमान रु. 10,000--15,200/-) के पद पर नियुक्त करते हैं।

डॉ. देवी एन.

अवर सचिव

मुम्बई-400001, दिनांक 21 जुलाई 2005

सं. 6(1037)/87-प्रशा./5388--राष्ट्रपति, श्री पी. वी. जयप्रकाश, उप लेखा नियंत्रक (वेतनमान रु. 10,000-325-15,200/-), परमाणु ऊर्जा विभाग, मुम्बई को दिनांक 1 जुलाई 2005 (पूर्वाह्न) से तीन वर्ष की अवधि अथवा भावी आदेश होने तक, जो भी पहले हो, हेतु इसी विभाग में रु. 10,000-325-15,200/- के वेतनमान में अवर सचिव, भारत सरकार के पद पर नियुक्त करते हैं।

पी. पी. माधवनकुट्टी
अवर सचिव

(प्रगत प्रौद्योगिकी केन्द्र)

इन्दौर-452013, दिनांक 20 जुलाई 2005

सं. केट/प्रशासन/भ.-807(2)/628--निदेशक, प्रगत प्रौद्योगिकी केन्द्र, इन्दौर ने श्री पी. डी. श्रृंगी, सहायक लेखा अधिकारी को इस केन्द्र में वेतनमान रु. 7,500-250-12,000/- में लेखा अधिकारी के अवकाश रिक्त पद पर तदर्थ आधार पर दिनांक 03.05.2005 (पूर्वाह्न) से 08.06.2005 (अपराह्न) तक नियुक्त किया है।

डी. एस. राव
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी

सं. केट/प्रशासन/भ.-807(2)/629--निदेशक, प्रगत प्रौद्योगिकी केन्द्र, इन्दौर ने श्री के. के. रम्बाड़िया, प्रवर श्रेणी लिपिक को इस केन्द्र में वेतनमान रु. 7,450-225-11,500/- में सहायक लेखा अधिकारी के अवकाश रिक्त पद पर तदर्थ आधार पर दिनांक 03.05.2005 (पूर्वाह्न) से 08.06.2005 (अपराह्न) तक नियुक्त किया है।

डी. एस. राव
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी

सं. केट/प्रशासन/भ.-902/631--भारत के राष्ट्रपति एतद्वारा निम्नलिखित वैज्ञानिक अधिकारियों को उनके सम्मुख अंकित पदक्रम

एवं दिनांक की पूर्वाह्न से स्थाई रूप से आगामी आदेशों तक प्रगत प्रौद्योगिकी केन्द्र, इन्दौर में नियुक्त करते हैं :-

क्रमांक	अधिकारी का नाम	पद	दिनांक
1.	डॉ. कैलिटु कुमार चट्टोपाध्याय	वै.अ./डी	01.04.2002
2.	श्री विकास कुमार रैन	वै.अ./डी	01.04.2003
3.	श्री सुब्रता दास	वै.अ./डी	-वही-
4.	श्रीमती सम्पा गोपाध्याय	वै.अ./डी	-वही-
5.	श्री भास्कर बिस्वास	वै.अ./डी	-वही-
6.	श्री के. लक्ष्मी नारायण	वै.अ./डी	-वही-
7.	श्री कौल	वै.अ./सी	01.10.2003
8.	श्री भूपिन्दर सिंह	वै.अ./सी	-वही-
9.	श्री शंकर लाल	वै.अ./सी	-वही-
10.	श्री दीपक कुमार शर्मा	वै.अ./सी	-वही-
11.	श्री योगेश वर्मा	वै.अ./सी	-वही-
12.	कु. प्रज्ञा पंडित	वै.अ./सी	-वही-
13.	श्री अमित उपाध्याय	वै.अ./सी	-वही-
14.	श्री राजेश कुमार सक्सेना	वै.अ./सी	-वही-
15.	श्री रावधीर सिंह सैनी	वै.अ./सी	-वही-
16.	श्री डी. ए. मिश्रा	वै.अ./सी	-वही-
17.	श्री सूर्य प्रकाश राम	वै.अ./सी	-वही-
18.	डॉ. जाहिद बेग मिर्जा	वै.अ./सी	01.10.2004
19.	श्री नीरज गोयल	वै.अ./सी	-वही-
20.	श्री वी. पी. सिंह	वै.अ./सी	-वही-
21.	श्री रियासत हुसन	वै.अ./सी	-वही-
22.	श्री राजीव कुमार	वै.अ./सी	-वही-
23.	श्रीमती रचना सेल्वमणी	वै.अ./सी	-वही-
24.	श्री विष्णु कुमार	वै.अ./सी	-वही-
25.	श्री हिमांशु सिंघल	वै.अ./सी	-वही-
26.	श्री अरिजीत दास	वै.अ./सी	-वही-
27.	श्री खगेश्वर साहू	वै.अ./सी	-वही-

डी. एस. राव
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी

दिनांक 21 जुलाई 2005

सं. केट/प्रशा./भ-807(I)/632--निदेशक, प्रगत प्रौद्योगिकी केन्द्र, इन्दौर एतद्वारा श्री बी. पी. जोशी, सहायक कार्मिक अधिकारी को प्रशासनिक अधिकारी-II के पद पर रु. 7,500-250-12,000/- के वेतनमान में दिनांक 5 जुलाई 2005 की पूर्वाह्न से प्रगत प्रौद्योगिकी केन्द्र, इन्दौर में स्थानापन्न रूप से आगामी आदेशों तक नियुक्त करते हैं।

डी. एस. राव
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी

दिनांक 22 जुलाई 2005

सं. केट/प्रशा./भ-807(I)/639--निदेशक, प्रगत प्रौद्योगिकी केन्द्र, इन्दौर एतद्वारा श्री जे. आर. जड़े, वरिष्ठ लिपिक को सहायक कार्मिक अधिकारी के पद पर रु. 6,500-200-10,500/- के वेतनमान में

(नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र)

हैदराबाद-500062, दिनांक 21 जुलाई 2005

सं. नाईस/काप्रभ-II/2-2005/1614--राष्ट्रपति, नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र, हैदराबाद के निम्नलिखित वैज्ञानिक अधिकारियों/अभियंताओं और वैज्ञानिक सहायक को इसी इकाई में उनके नाम के सम्मुख दर्शाए गए ग्रेड में, स्थानापन्न हैसियत में आगामी आदेशों पर्यंत सहर्ष नियुक्त करते हैं :--

क्रम सं.	नाम	पदोन्नति		पदोन्नति की तारीख
		ग्रेड से	ग्रेड तक	
1	2	3	4	5
वैज्ञानिक अधिकारी/ई--वेतनमान रु. 12,000-375-16,500				
	सर्वश्री/श्रीमती/कु.			
1.	डी. कृष्णामूर्ति	वैज्ञानिक अधिकारी/डी	वैज्ञानिक अधिकारी/ई	01.02.2005
2.	बी. आर. अचार्या	"	"	01.02.2005
3.	एन. वी. सूर्यनारायणा	"	"	01.02.2005
4.	पी. बसवेश्वरा राव	"	"	01.02.2005
5.	यू. नारायणा राव	"	"	01.02.2005
6.	आर. इथिराज	"	"	01.02.2005
7.	ए. एस. रामा राव	"	"	01.02.2005
8.	ए. सत्यनारायणा	"	"	01.02.2005
9.	डॉ. वी. बालय्या	"	"	01.02.2005
10.	एस. नरसिम्हा	"	"	01.02.2005
11.	वी. ओ. एस. एन. राजू	"	"	01.02.2005
12.	के. रामचन्द्रन	"	"	01.02.2005
13.	जी. वी. पी. श्याम	"	"	15.02.2005

दिनांक 18 जुलाई 2005 की पूर्वाह्न से प्रगत प्रौद्योगिकी केन्द्र, इन्दौर में स्थानापन्न रूप से आगामी आदेशों तक नियुक्त करते हैं।

डी. एस. राव
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी

(क्रय और भंडार निदेशालय)

मुम्बई-400094, दिनांक 7 जुलाई 2005

सं. क्रभनि/10010/भर्ती/2805--परमाणु ऊर्जा विभाग, क्रय और भंडार निदेशालय के निदेशक ने इंदौर क्षेत्रीय क्रय एकक, प्रप्रौकें, इन्दौर के क्रय सहायक श्री बी. अनिल कुमार को इसी निदेशालय में दिनांक 02.05.2005 (पूर्वाह्न) से 17.06.2005 (अपराह्न) तक रु. 6,500-200-10,500/- के वेतनमान में सहायक क्रय अधिकारी के पद पर तदर्थ आधार पर नियुक्त किया है।

किशन टी. लोंडे
प्रशासनिक अधिकारी-III

1	2	3	4	5
वैज्ञानिक अधिकारी/डी--वेतनमान रु. 10,000-325-15,200				
	सर्वश्री			
1.	पी. मल्ला रेड्डी	वैज्ञानिक अधिकारी/सी	वैज्ञानिक अधिकारी/डी	01.02.2005
2.	एम. एस. आर. कृष्णय्या	"	"	01.02.2005
3.	राम चित्तरंजन	"	"	01.02.2005
4.	के. वी. के. राजू	"	"	01.02.2005
5.	पी. त्यागराज	"	"	01.02.2005
6.	आर. रामकृष्ण राजू	"	"	01.02.2005
7.	मो. असदुल्ला शरीफ	"	"	01.02.2005
8.	एम. श्रीनिवासन	"	"	01.02.2005

वैज्ञानिक अधिकारी/सी--वेतनमान रु. 8,000-275-13,500

	सर्वश्री			
1.	मो. सिद्दीक	वैज्ञानिक अधिकारी/एसबी	वैज्ञानिक अधिकारी/डी	01.02.2005
2.	दीनानाथ सिंह	"	"	01.02.2005
3.	ए. एल. वी. कुमार रेड्डी	"	"	01.02.2005
4.	डी. वी. आर. प्रसाद	"	"	01.02.2005
5.	के. पुरुषोत्तम राव	"	"	01.02.2005
6.	के. नरसिम्हा राव	"	"	01.02.2005
7.	ए. भीमशंकर राव	वैज्ञानिक सहायक/डी	"	01.02.2005

जी. कोटेश्वर राव
प्रशासनिक अधिकारी

नागर विमानन महानिदेशालय

नई दिल्ली-110003, दिनांक 13 जुलाई 2005

सं. ए-19011/110/80-स्था.-I--राष्ट्रपति जी, महानिदेशक नागर विमानन का कार्यालय में कार्यरत श्री भूषण कुमार, उप निदेशक अनुसंधान एवं विकास, की स्वेच्छिक सेवानिवृत्ति के सम्बन्ध में नोटिस को केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 48-ए के तहत दिनांक 01.08.2005 (पूर्वाह्न) से मंजूर करते हैं। महानिदेशक, नागर विमानन के कार्यालय में श्री भूषण कुमार, उप निदेशक, अनुसंधान एवं विकास, को दिनांक 01.08.2005 (पूर्वाह्न) से कार्यमुक्त किया जाता है।

चानन राम
उप निदेशक (प्रशासन)

दिनांक 18 जुलाई 2005

शुद्धि-पत्र

इस कार्यालय के दिनांक 20.06.2005 की अधिसूचना संख्या ए-32013/2/2004-स्था.-I जो श्री के. एस. बालासुब्रामनियम,

उपनिदेशक/नियंत्रण उड़नयोग्यता के निदेशक उड़नयोग्यता के पद पर नियमित नियुक्ति के बारे में है। अधिसूचना में उल्लिखित वेतनमान "रु. 14,000-400-18,000/-" के स्थान पर "रु. 14,300-400-18,300/-" पढ़ा जाए।

चानन राम
उप निदेशक (प्रशासन)

कम्पनी कार्य मंत्रालय
(कम्पनी कार्य विभाग)
कार्यालय कम्पनी रजिस्ट्रार

कम्पनी अधिनियम, 1956 एवं मैसर्स फारमर्स एण्ड सोशल डेवलपमेन्ट इन्स्टीट्यूट (इण्डिया) लिमिटेड के विषय में।

कानपुर-208001, दिनांक 18 जुलाई 2005

सं. एल.सी./560(3)/3658/1255--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अन्तर्गत सूचना दी जाती है कि आज की तिथि से तीन माह की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स फारमर्स एण्ड सोशल डेवलपमेन्ट इन्स्टीट्यूट (इण्डिया) लिमिटेड

का नाम यदि कोई प्रतिकूल कारण नहीं है तो कम्पनी के रजिस्टर से काट दिया जाएगा तथा कथित कम्पनी विघटित हो जाएगी।

बी. के. बंसल
कम्पनी रजिस्ट्रार
उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल

है कि आज की तिथि से तीन माह की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स सुप्रीम एक्जिम प्राईवेट लिमिटेड का नाम यदि कोई प्रतिकूल कारण नहीं है तो कम्पनी के रजिस्टर से काट दिया जाएगा तथा कथित कम्पनी विघटित हो जाएगी।

बी. के. बंसल
कम्पनी रजिस्ट्रार
उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल

कम्पनी अधिनियम, 1956 एवं मैसर्स रूबी ओरियन्ट होटल्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

कानपुर-208001, दिनांक 18 जुलाई 2005

सं. एल.सी./560(3)/35601--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अन्तर्गत सूचना दी जाती है कि आज की तिथि से तीन माह की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स रूबी ओरियन्ट होटल्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम यदि कोई प्रतिकूल कारण नहीं है तो कम्पनी के रजिस्टर से काट दिया जाएगा तथा कथित कम्पनी विघटित हो जाएगी।

बी. के. बंसल
कम्पनी रजिस्ट्रार
उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल

कम्पनी अधिनियम, 1956 एवं मैसर्स शंकर डेवलपर्स एण्ड बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

जयपुर-302006, दिनांक 19 जुलाई 2005

सं. आर.ओ.सी./560/6686/1171--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त मैसर्स शंकर डेवलपर्स एण्ड बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए गए तो कम्पनी का नाम कम्पनी रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

कम्पनी अधिनियम, 1956 एवं मैसर्स स्टैन्डर्ड जनरेटर्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

कानपुर-208001, दिनांक 18 जुलाई 2005

सं. एल.सी./560(3)/7845--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अन्तर्गत सूचना दी जाती है कि आज की तिथि से तीन माह की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स स्टैन्डर्ड जनरेटर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम यदि कोई प्रतिकूल कारण नहीं है तो कम्पनी के रजिस्टर से काट दिया जाएगा तथा कथित कम्पनी विघटित हो जाएगी।

बी. के. बंसल
कम्पनी रजिस्ट्रार
उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल

कम्पनी अधिनियम, 1956 एवं मैसर्स लक्ष्मी ब्रेड्स प्राईवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

जयपुर-302006, दिनांक 19 जुलाई 2005

सं. आर.ओ.सी./560/15525/1175--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त मैसर्स लक्ष्मी ब्रेड्स प्राईवेट लिमिटेड यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए गए तो कम्पनी का नाम कम्पनी रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

कम्पनी अधिनियम, 1956 एवं मैसर्स सुप्रीम एक्जिम प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

कानपुर-208001, दिनांक 19 जुलाई 2005

सं. एल.सी./560(3)/15778--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अन्तर्गत सूचना दी जाती

बी. सी. मीणा
रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 एवं मैसर्स वत्सल कम्प्यूटर्स प्राईवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

जयपुर-302006, दिनांक 19 जुलाई 2005

सं. आर.ओ.सी./560/15270/1179--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त मैसर्स वत्सल कम्प्यूटर्स प्राईवेट लिमिटेड यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए गए तो कम्पनी का नाम कम्पनी रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

बी. सी. मीणा
रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में :--

बेंगलूर, दिनांक 11 जुलाई 2005

सं. एसटीए/एनकेआर/एसईएस-2005/560(3)/2005-2006--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर निम्नलिखित कम्पनियों का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी :--

क्रम सं.	कम्पनी सं.	कम्पनी का नाम
1.	22835	मैसर्स कोल्लाक्को लेबोरेटरीज इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड
2.	18216	मैसर्स साइप्रस सेमीकण्डक्टर्स इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड
3.	12201	मैसर्स सोनावाला फिजियोथेरापिटिक सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड
4.	23890	मैसर्स शार्प हाइड्रोलिक्स इक्विपमेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड

संतोष कुमार
कम्पनियों के सहायक रजिस्ट्रार
कर्नाटक

कम्पनी अधिनियम, 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में।

शिलांग, दिनांक 21 जुलाई 2005

सं. आर.ओ.सी./एस.ई.एस./03/एलटी/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के तहत सूचना दी जाती है कि यहां लिखित दिनांक से तीन महीने के बाद निम्नलिखित 241 (दो सौ एकतालिस) कम्पनियों के नाम जब तक कारण दर्शाया न जाए उक्त अधिनियम की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसार उनके नाम कम्पनी के रजिस्टर से काट दिए जाएंगे :--

क्रम सं.	रजिस्ट्रेशन नं.	कम्पनी का नाम	रजिस्ट्रेशन आफिस
1	2	3	4
1.	12-02243	मैसर्स मणिपुर कन्डक्टर्स एण्ड केबल्स प्राईवेट लिमिटेड	मणिपुर
2.	02-06178	मैसर्स डिस्का मैनुफैक्चरिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड	आसाम
3.	02-04600	मैसर्स ओलंगबार फाइनांस एण्ड इन्वेस्टमेन्ट प्राईवेट लिमिटेड	आसाम
4.	02-01303	मैसर्स मॉर्डन मेटल मोल्डर्स (आसाम) लिमिटेड	आसाम
5.	02-05389	मैसर्स भगवती प्लान्टेशन एण्ड इन्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड	आसाम
6.	14-02101	मैसर्स अरोमा टिम्बर प्राईवेट नागालैन्ड लिमिटेड	नागालैन्ड
7.	02-02926	मैसर्स ब्ल्यूआर्क इन्जीनियरिंग आसाम लिमिटेड	आसाम
8.	23-02489	मैसर्स ध्रुव बुडक्राफ्ट प्राईवेट लिमिटेड	अरुणाचल प्रदेश
9.	02-04797	मैसर्स लेखापानी वेनीर एण्ड सॉ मिल्स प्राईवेट लिमिटेड	आसाम
10.	02-04408	मैसर्स एसोसिएटेड टेलीकॉम सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड	आसाम
11.	02-04720	मैसर्स एच. के. राजखुआ एण्ड एसोसिएट्स प्राईवेट लिमिटेड	आसाम
12.	02-04936	मैसर्स मालभोग बाना रीयल इस्टेट्स प्राईवेट लिमिटेड	आसाम

1	2	3	4	1	2	3	4
13.	02-04957	मैसर्स गोल्डेन इण्डिया फाइनान्स एण्ड इन्वेस्टमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड	आसाम	31.	02-04958	मैसर्स पटवा फाइनान्स कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड	आसाम
14.	02-05994	मैसर्स आसाम टेलिफोनिक लिमिटेड	आसाम	32.	14-02307	मैसर्स सुप्रीम वेनीस प्राइवेट लिमिटेड	नागालैन्ड
15.	02-03850	मैसर्स कामाख्या कम्पोजिट फार्म प्राइवेट लिमिटेड	आसाम	33.	23-06500	मैसर्स कुमकी एग्रो प्राइवेट लिमिटेड	अरुणाचल प्रदेश
16.	02-04939	मैसर्स लुइट ग्राफिका डिजाइन स्टुडियो प्राइवेट लिमिटेड	आसाम	34.	02-03479	मैसर्स लुहित वैली एकेडेमी प्राइवेट लिमिटेड	आसाम
17.	14-05464	मैसर्स हिल टी इस्टेट प्राइवेट लिमिटेड	नागालैन्ड	35.	14-02076	मैसर्स सी. एम. इन्डस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड	नागालैन्ड
18.	14-05048	मैसर्स शक्ती शू कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड	नागालैन्ड	36.	02-02935	मैसर्स सिल्वर रोलर मिल्स प्राइवेट लिमिटेड	आसाम
19.	02-02770	मैसर्स गिरिस्टेन कार्स्टिंग्स प्राइवेट लिमिटेड	आसाम	37.	13-06883	मैसर्स विशाल मेघा कारबाइड मेघालय प्राइवेट लिमिटेड	
20.	02-04202	मैसर्स जी. एस. सेक्युरिटीज प्राइवेट लिमिटेड	आसाम	38.	02-04375	मैसर्स आप्टेक सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड	आसाम
21.	02-02763	मैसर्स जेनिथ इण्डिया सर्जिकल्स प्राइवेट लिमिटेड	आसाम	39.	02-04414	मैसर्स जयन्ती फार्मिंग एण्ड फोरेस्ट्री रिसर्च सेन्टर प्राइवेट लिमिटेड	आसाम
22.	02-05552	मैसर्स जीवन ज्योति फाइनेन्स एण्ड इन्वेस्टमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड	आसाम	40.	02-04412	मैसर्स जयन्ती टूरिज्म (नॉर्थ ईस्ट) प्राइवेट लिमिटेड	आसाम
23.	02-03605	मैसर्स मात्रि कोल कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड	आसाम	41.	02-04336	मैसर्स ओएसपीएल सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड	आसाम
24.	13-01544	मैसर्स मेघालय स्प्रिंग मिल्स प्राइवेट लिमिटेड	मेघालय	42.	02-01804	मैसर्स बिल्ड-हाऊस कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड	आसाम
25.	02-03776	मैसर्स गणपति डीजल सेल्स एण्ड सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड	आसाम	43.	02-04725	मैसर्स सुगम व्यापार प्राइवेट लिमिटेड	आसाम
26.	14-02002	मैसर्स लोवर तिरु फारेस्ट प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	नागालैन्ड	44.	02-00612	मैसर्स जालान टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड	आसाम
27.	14-01943	मैसर्स टेकंग वुड इन्डस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड	नागालैन्ड	45.	02-06705	मैसर्स प्रिसिजन स्क्रिप प्राइवेट लिमिटेड	आसाम
28.	02-06674	मैसर्स फास्टनेट मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड	आसाम	46.	02-06914	मैसर्स प्रॉमिज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड	आसाम
29.	02-04885	मैसर्स कर्मभूमि फार्मिंग एण्ड ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड	आसाम	47.	14-02179	मैसर्स ब्ल्यू वैली फोरेस्ट प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	नागालैन्ड
30.	02-04934	मैसर्स कर्मभूमि मीडिया सर्विस प्राइवेट लिमिटेड	आसाम	48.	02-01894	मैसर्स ठंडारियाज एकाउंटिंग एण्ड कम्प्यूटर सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड	आसाम
				49.	13-03131	मैसर्स जैस्पर मार्केटिंग इन्टरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड	मेघालय

1	2	3	4
50.	13-03751	मैसर्स जसपर एग्रो फूड्स लिमिटेड	मेघालय
51.	23-04616	मैसर्स अरुणाचल प्रदेश सीमेन्ट कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड	अरुणाचल प्रदेश
52.	02-02790	मैसर्स आडियो फाइल प्राईवेट लिमिटेड	आसाम
53.	14-05755	मैसर्स लूमोकिंग एग्रो-टेक प्राईवेट लिमिटेड	नागालैन्ड
54.	02-04181	मैसर्स नामसिम रीयल इस्टेट्स प्राईवेट लिमिटेड	आसाम
55.	02-03869	मैसर्स एएनजेड रीयल इस्टेट्स प्राईवेट लिमिटेड	आसाम
56.	02-03878	मैसर्स क्रिस्टल वायर बेस कम्प्युनिकेशन प्राईवेट लिमिटेड	आसाम
57.	14-02030	मैसर्स पूर्वाचल वुड इन्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड	नागालैन्ड
58.	02-02958	मैसर्स अभिनन्दन हाऊसिंग एण्ड फाइनान्स इण्डिया लिमिटेड	आसाम
59.	02-01757	मैसर्स आसाम केन डीलर्स प्राईवेट लिमिटेड	आसाम
60.	02-04215	मैसर्स एक्सल वेन्चर्स प्राईवेट लिमिटेड	आसाम
61.	19-03116	मैसर्स त्रिपुरेश्वरी रबर प्राईवेट लिमिटेड	त्रिपुरा
62.	02-04533	मैसर्स स्काईलाइन प्रोजेक्ट्स एण्ड बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड	आसाम
63.	14-02041	मैसर्स एपेक्स टिम्बर्स प्राईवेट लिमिटेड	नागालैन्ड
64.	02-06165	मैसर्स आर आई ब्लेसम प्राईवेट लिमिटेड	आसाम
65.	02-01908	मैसर्स मयूर प्लाईवुड इन्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड	आसाम
66.	02-02962	मैसर्स हाई-टेक इलेक्ट्रोड्स प्राईवेट लिमिटेड	आसाम
67.	02-04527	मैसर्स सरला हास्पिटल प्राईवेट लिमिटेड	आसाम
68.	02-00953	मैसर्स श्री धानुका मिल्स प्राईवेट लिमिटेड	आसाम

1	2	3	4
69.	02-03191	मैसर्स डाटामेशन सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड	आसाम
70.	02-01745	मैसर्स आसाम आइसोलेटर्स प्राईवेट लिमिटेड	आसाम
71.	02-02805	मैसर्स ब्रह्मपुत्र कॉमर्शियल एण्ड लीजिंग प्राईवेट लिमिटेड	आसाम
72.	02-04882	मैसर्स प्लीजेन्ट हिल कन्स्ट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड	आसाम
73.	02-06320	मैसर्स हालक्योन रीयल इस्टेट प्राईवेट लिमिटेड	आसाम
74.	02-05346	मैसर्स देबसन्स जूट कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड	आसाम
75.	02-04731	मैसर्स रूपा मशरूम प्राईवेट लिमिटेड	आसाम
76.	02-04320	मैसर्स सीआरएम सिस्चुरिटीज लिमिटेड	आसाम
77.	02-04321	मैसर्स गुडेज सिस्चुरिटीज लिमिटेड	आसाम
78.	02-04382	मैसर्स हाइडेक्स फायनान्शियल सर्विसेस लिमिटेड	आसाम
79.	02-04384	मैसर्स हाइडेक्स लीजिंग लिमिटेड	आसाम
80.	02-04385	मैसर्स हाइडेक्स इन्वेस्टमेन्ट लिमिटेड	आसाम
81.	02-04384	मैसर्स बाबा सिस्चुरिटीज लिमिटेड	आसाम
82.	02-04386	मैसर्स बाबा कैपिटल मार्केट लिमिटेड	आसाम
83.	02-03194	मैसर्स इन्डस ट्रेड एण्ड फाइनान्स लिमिटेड	आसाम
84.	02-04252	मैसर्स पायनियर पेट्रो ड्रिल सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड	आसाम
85.	02-04947	मैसर्स कर्मभूमि मोटर्स एण्ड ट्रेवलस प्राईवेट लिमिटेड	आसाम
86.	02-02016	मैसर्स सुनीर प्राईवेट लिमिटेड	आसाम
87.	02-04932	मैसर्स रॉयल इस्टेट्स प्राईवेट लिमिटेड	आसाम
88.	02-02851	मैसर्स आसाम हेल्थ केयर एण्ड डायग्नोस्टिक प्राईवेट लिमिटेड	आसाम

1	2	3	4	1	2	3	4
89.	02-02588	मैसर्स राही लीजिंग एण्ड फाइनेन्स कम्पनी लिमिटेड	आसाम	108.	02-01899	मैसर्स विजार्ड कोल्ड सटोरेज प्राईवेट लिमिटेड	आसाम
90.	02-05995	मैसर्स भागवती एग्रो प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	आसाम	109.	02-03134	मैसर्स प्रकाश लैम्प प्राईवेट लिमिटेड	आसाम
91.	02-04799	मैसर्स हानूस टी कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड	आसाम	110.	13-04614	मैसर्स पाला सीमेन्ट प्राईवेट लिमिटेड	मेघालय
92.	02-02089	मैसर्स एम.बी. इन्वेस्टमेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	आसाम	111.	02-02735	मैसर्स गुडमैन लेबोरेटरीज प्राईवेट लिमिटेड	आसाम
93.	02-01734	मैसर्स प्लाईवुड एण्ड इन्डस्ट्रियल कन्सल्टेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	आसाम	112.	14-06459	मैसर्स सारस मिलेनियम टेक्नोलोजी प्राईवेट लिमिटेड	नागालैन्ड
94.	02-04807	मैसर्स सोनितपुर ट्रेडिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड	आसाम	113.	14-06170	मैसर्स सारस टूर्स एण्ड ट्रेवल्स प्राईवेट लिमिटेड	नागालैन्ड
95.	02-01930	मैसर्स गजानन्द प्लाटेक्स प्राईवेट लिमिटेड	आसाम	114.	12-02968	मैसर्स खुन्दाकपम फाइनेन्स प्राईवेट लिमिटेड	मनीपुर
96.	02-06620	मैसर्स प्रीमियम ब्रेवरीज प्राईवेट लिमिटेड	आसाम	115.	13-01663	मैसर्स मेघालय वायर्स लिमिटेड	मेघालय
97.	02-03915	मैसर्स उर्वशी पोलीमर्स प्राईवेट लिमिटेड	आसाम	116.	02-06402	मैसर्स आरपीसी सॉफ्ट वायर प्राईवेट लिमिटेड	आसाम
98.	02-04636	मैसर्स सालगंगा एग्रो फार्म्स प्राईवेट लिमिटेड	आसाम	117.	14-06551	मैसर्स सारस आजाद ट्रान्सपोर्ट (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड	नागालैन्ड
99.	02-03104	मैसर्स सिलचर इस्पात उद्योग प्राईवेट लिमिटेड	आसाम	118.	14-06476	मैसर्स सारस रोडवेज प्राईवेट लिमिटेड	नागालैन्ड
100.	02-04219	मैसर्स आसाम एल्बार्टोस इस्टेट एण्ड फाइनेन्स लिमिटेड	आसाम	119.	14-06537	मैसर्स अम्बर फ्यूल्स टेक्नोलोजी प्राईवेट लिमिटेड	नागालैन्ड
101.	02-03585	मैसर्स नियो एलाइड ट्रेडर्स प्राईवेट लिमिटेड	आसाम	120.	02-02569	मैसर्स स्पीडेक्स इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड	आसाम
102.	23-04110	मैसर्स मानसी वुड प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	अरुणाचल प्रदेश	121.	02-03241	मैसर्स फ्रन्टियर कन्सल्टेशन एण्ड एसोसिएट्स प्राईवेट लिमिटेड	आसाम
103.	02-5056	मैसर्स एसएसआर सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड	आसाम	122.	02-03241	मैसर्स एटलस ट्रान्सपोर्ट कम्पनी (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड	आसाम
104.	02-05363	मैसर्स फ्लोरेन्स टी एण्ड एग्रो प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	आसाम	123.	02-02397	मैसर्स जेसीबी कन्सल्टेशन प्राईवेट लिमिटेड	आसाम
105.	02-03952	मैसर्स बिलमोर कन्सल्टेशन प्राईवेट लिमिटेड	आसाम	124.	02-00546	मैसर्स कामाख्या राइस मिल एण्ड इन्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड	आसाम
106.	14-02028	मैसर्स प्लाईक्राफ्ट इन्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड	नागालैन्ड	125.	02-01766	मैसर्स कन्सल्टेन्ट्स (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड	आसाम
107.	23-01988	मैसर्स टुम्बा टिम्बर इन्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड	अरुणाचल प्रदेश				

1	2	3	4
126.	02-04589	मैसर्स प्रशान्ति फाइनान्स एण्ड इन्वेस्टमेन्ट प्राईवेट लिमिटेड	आसाम
127.	02-02065	मैसर्स जी. डी. प्रोजेक्ट्स एण्ड मार्केटिंग कम्पनी लिमिटेड	आसाम
128.	02-02095	मैसर्स लोकोप्रिया फाइनान्स एण्ड इन्डस्ट्रीज इन्वेस्टमेन्ट (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड	आसाम
129.	02-04076	मैसर्स स्टैन्डर्ड कोटिंग्स प्राईवेट लिमिटेड	आसाम
130.	14-02042	मैसर्स नागालैन्ड वुड इन्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड	आसाम
131.	02-04919	मैसर्स ग्लेजिंग ग्रेनाइट्स प्राईवेट लिमिटेड	आसाम
132.	02-03941	मैसर्स बी. आर. हास्पिटल प्राईवेट लिमिटेड	आसाम
133.	02-03830	मैसर्स कामाख्या लैम्प प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	आसाम
134.	02-04238	मैसर्स डीपीके सिक्कुरिटीज लिमिटेड	आसाम
135.	14-02509	मैसर्स ईस्टकेम प्राईवेट लिमिटेड	नागालैन्ड
136.	02-01716	मैसर्स राजहंस ट्रेवलर्स प्राईवेट लिमिटेड	आसाम
137.	02-04240	मैसर्स पीकेडी सिक्कुरिटीज लिमिटेड	आसाम
138.	02-03240	मैसर्स ट्रान्सपोर्ट ट्रेडर्स ऑफ इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड	आसाम
139.	02-01956	मैसर्स एसोसिएट प्रोपर्टीज एण्ड इन्वेस्टमेन्ट प्राईवेट लिमिटेड	आसाम
140.	02-01659	मैसर्स कम्पनी कन्सलटेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	आसाम
141.	14-02391	मैसर्स नागालैन्ड एग्रो इन्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड	नागालैन्ड
142.	02-02796	मैसर्स नेमा प्राईवेट लिमिटेड	आसाम
143.	14-04900	मैसर्स जैन बनारी सर्वेयर्स एण्ड कन्सलटेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	आसाम

1	2	3	4
144.	02-05555	मैसर्स आशीर्वाद लिमिटेड	आसाम
145.	02-05959	मैसर्स केयरवेल पोलीक्लीनिक एण्ड डायग्नोस्टिक सेन्टर प्राईवेट लिमिटेड	आसाम
146.	02-03641	मैसर्स एसकेबी एजेन्सीज प्राईवेट लिमिटेड	आसाम
147.	02-00485	मैसर्स जयन्ती प्राईवेट लिमिटेड	आसाम
148.	14-02904	मैसर्स काम्बरी फारेस्ट प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	नागालैन्ड
149.	02-04099	मैसर्स नीलाचल ट्रेड एण्ड वेयर प्राईवेट लिमिटेड	आसाम
150.	13-02784	मैसर्स इण्डियन लाइववायर्स प्राईवेट लिमिटेड	मेघालय
151.	14-04575	मैसर्स खन्डेलवाल फाइनेन्शियल सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड	नागालैन्ड
152.	14-05834	मैसर्स सुधा ऑटोमोबाइल्स प्राईवेट लिमिटेड	नागालैन्ड
153.	14-03152	मैसर्स एबी-टेक एसोसिएट कन्सलटेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	नागालैन्ड
154.	14-01769	मैसर्स नागालैन्ड प्लास्टिक प्राईवेट लिमिटेड	नागालैन्ड
155.	12-02393	मैसर्स ईस्टर्न एग्रो फार्मा प्राईवेट लिमिटेड	मनीपुर
156.	13-06236	मैसर्स सरोडा डिजिटैक प्राईवेट लिमिटेड	मेघालय
157.	02-03022	मैसर्स ट्रियोलाइन प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	आसाम
158.	14-01823	मैसर्स लांगथो वैली वुडक्राफ्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	नागालैन्ड
159.	02-01277	मैसर्स बेवरेजेज एण्ड फूड प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	आसाम
160.	02-03807	मैसर्स हिली प्लस फैब्रिक्स प्राईवेट लिमिटेड	आसाम
161.	02-04021	मैसर्स मानस कॉमर्शियल कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड	आसाम
162.	14-02090	मैसर्स अरुण फारेस्ट प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	आसाम

1	2	3	4	1	2	3	4
163.	02-05970	मैसर्स स्वस्तिक गिफ्ट सर्विसेस एण्ड ट्रेडिंग प्राईवेट लिमिटेड	आसाम	181.	02-02586	मैसर्स लोहट ट्रेड एण्ड इन्टरप्राइजेज प्राईवेट लिमिटेड	आसाम
164.	13-05756	मैसर्स पोलिस्टर फाइनान्स एण्ड इन्वेस्टमेन्ट कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड	मेघालय	182.	58-04856	मैसर्स कोलोडाइन कोम्बाइन प्राईवेट लिमिटेड	मिजोरम
165.	13-03611	मैसर्स फारिया फाइनान्स एण्ड इन्वेस्टमेन्ट प्राईवेट लिमिटेड	मेघालय	183.	14-02080	मैसर्स वेकांग वुड प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	नागालैन्ड
166.	02-02574	मैसर्स ट्रान्स उद्योग प्राईवेट लिमिटेड	आसाम	184.	02-05444	मैसर्स मानस टेक्सटाइल प्राईवेट लिमिटेड	आसाम
167.	14-05797	मैसर्स आर.जी. ट्रेडिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड	नागालैन्ड	185.	23-03847	मैसर्स सिलोसा सॉ एण्ड वेनियर मिल्स प्राईवेट लिमिटेड	अरुणाचल प्रदेश
168.	02-03411	मैसर्स हारोचाराई प्लान्टेशन्स प्राईवेट लिमिटेड	आसाम	186.	02-05612	मैसर्स मानस टी प्राईवेट लिमिटेड	आसाम
169.	02-03410	मैसर्स बरुआ इन्टरप्राइजेज प्राईवेट लिमिटेड	आसाम	187.	13-02775	मैसर्स टी केम प्राईवेट लिमिटेड	मेघालय
170.	02-03444	मैसर्स रंगा एजेन्सीज प्राईवेट लिमिटेड	आसाम	188.	02-04749	मैसर्स गुवाहाटी ऑयल फील्ड केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड	आसाम
171.	02-03498	मैसर्स श्रिदेय पोली इन्टरप्राइजेज प्राईवेट लिमिटेड	आसाम	189.	02-04023	मैसर्स असदी फार्म प्राईवेट लिमिटेड	आसाम
172.	02-03692	मैसर्स सरबेक ट्रेडिंग एण्ड इन्वेस्टमेन्ट प्राईवेट लिमिटेड	आसाम	190.	02-04794	मैसर्स नेजोन एक्स- सर्विसमेन सिक्युरिटी सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड	आसाम
173.	14-01687	मैसर्स नागालैन्ड ट्रेड एण्ड एजेन्सीज प्राईवेट लिमिटेड	नागालैन्ड	191.	02-04106	मैसर्स उत्तर काचर फाइनान्स प्राईवेट लिमिटेड	आसाम
174.	14-03193	मैसर्स हिल्स प्लाईवुड उद्योग प्राईवेट लिमिटेड	नागालैन्ड	192.	02-02356	मैसर्स सृष्टि कॉमर्शियल प्राईवेट लिमिटेड	आसाम
175.	02-02519	मैसर्स शान्ति ट्रान्सपोर्ट प्राईवेट लिमिटेड	आसाम	193.	02-02729	मैसर्स कामरूप फाइनान्स कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड	आसाम
176.	14-02073	मैसर्स अमरज्योति वेनीयर एण्ड सॉ मिल प्राईवेट लिमिटेड	नागालैन्ड	194.	02-02091	मैसर्स गंगा प्रसाद नोपत्रये प्राईवेट लिमिटेड	आसाम
177.	02-04216	मैसर्स इन्टरलिक क्रेडिट कैपिटल प्राईवेट लिमिटेड	आसाम	195.	02-05093	मैसर्स नोविन कन्सलटेन्सी सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड	आसाम
178.	02-01750	मैसर्स सन्थाल परगना आइरन एण्ड स्टील कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड	आसाम	196.	02-04853	मैसर्स शिव शम्भू मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड	आसाम
179.	02-03455	मैसर्स ईस्टर्न विन्डोर्स प्राईवेट लिमिटेड	आसाम	197.	02-01905	मैसर्स लियोट प्रिन्टर्स एण्ड पब्लिशर्स प्राईवेट लिमिटेड	आसाम
180.	02-02486	मैसर्स ग्रीन वैली आइस ट्रेडर्स प्राईवेट लिमिटेड	आसाम	198.	13-06289	मैसर्स डी. शिरकान सॉ एण्ड वेनियर मिल्स प्राईवेट लिमिटेड	आसाम

1	2	3	4
199.	14-02141	मैसर्स भोन वुड प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	नागालैन्ड
200.	13-02070	मैसर्स एसटीएस एण्ड एसोसिएट्स प्राईवेट लिमिटेड	मेघालय
201.	02-02395	मैसर्स एसोसिएटेड बिल्डर्स एण्ड कान्ट्रैक्टर्स (आसाम) प्राईवेट लिमिटेड	आसाम
202.	02-05272	मैसर्स निजोन मिनरल्स प्राईवेट लिमिटेड	आसाम
203.	02-04036	मैसर्स फ्रन्टियर प्लाई प्राईवेट लिमिटेड	आसाम
204.	02-03753	मैसर्स करनाली फाइनान्स कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड	आसाम
205.	02-04176	मैसर्स आसाम वैली पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड	आसाम
206.	02-04017	मैसर्स जासोदा टी प्राईवेट लिमिटेड	आसाम
207.	13-05938	मैसर्स वेंकटेश्वरा कारबाइड प्राईवेट लिमिटेड	मेघालय
208.	02-03909	मैसर्स वर्धमान मार्केटिंग कन्स्यूमर्स प्राईवेट लिमिटेड	आसाम
209.	02-02822	मैसर्स नार्थ कामरूप रोलर फ्लोर मिल्स प्राईवेट लिमिटेड	आसाम
210.	02-04913	मैसर्स ग्रीन प्रिक्स प्लान्टेशनस प्राईवेट लिमिटेड	आसाम
211.	02-03227	मैसर्स ग्रामीण इण्डिया फाइनान्स एण्ड इन्वेस्टमेन्ट लिमिटेड	आसाम
212.	02-01778	मैसर्स सुभाष इन्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड	आसाम
213.	02-04362	मैसर्स बालाजी सिक्कुरिटीज प्राईवेट लिमिटेड	आसाम
214.	02-03238	मैसर्स एसोसिएटेड हॉस्पिटल्स लिमिटेड	आसाम
215.	02-02137	मैसर्स आसाम फार्मर फ्रेंड्स लिमिटेड	आसाम
216.	02-03673	मैसर्स कन्टेम्पेरी टेक्निकल सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड	आसाम
217.	02-01210	मैसर्स इमकोस सेल्स (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड	आसाम

1	2	3	4
218.	14-01743	मैसर्स कोन्याक विनियर एण्ड साँ मिल्स प्राईवेट लिमिटेड	नागालैन्ड
219.	14-01742	मैसर्स नागालैन्ड विनियर एण्ड साँ मिल्स प्राईवेट लिमिटेड	नागालैन्ड
220.	14-02085	मैसर्स नार्थ ईस्टर्न विनियर प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	नागालैन्ड
221.	23-01985	मैसर्स नामडिंग विनियर एण्ड साँ मिल्स प्राईवेट लिमिटेड	अरुणाचल प्रदेश
222.	02-01747	मैसर्स अमर चित्रम आसाम प्राईवेट लिमिटेड	आसाम
223.	02-01678	मैसर्स यूनियन कारबन ब्लैक लिमिटेड	आसाम
224.	02-01130	मैसर्स प्रिन्ट क्राफ्ट प्राईवेट लिमिटेड	आसाम
225.	14-02320	मैसर्स वर्जिन फारेस्ट प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	नागालैन्ड
226.	02-02564	मैसर्स पतयी माइनिंग इन्जीनियरिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड	आसाम
227.	02-01691	मैसर्स यूनियन एजेन्ड्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राईवेट लिमिटेड	आसाम
228.	02-02254	मैसर्स इन्डो फीड मिल्स प्राईवेट लिमिटेड	आसाम
229.	02-02196	मैसर्स विक्ट्री फार्मिंग प्राईवेट लिमिटेड	आसाम
230.	02-02197	मैसर्स वी श्री टी कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड	आसाम
231.	02-02067	मैसर्स के. जी. इन्टरप्राइजेज प्राईवेट लिमिटेड	आसाम
232.	02-02632	मैसर्स माजेन्गाह टी कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड	आसाम
233.	02-03371	मैसर्स मैग्म फिस्कल सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड	आसाम
234.	14-02167	मैसर्स ब्ल्यू हिल लुम्बेर्स प्राईवेट लिमिटेड	नागालैन्ड
235.	14-02115	मैसर्स ग्रीन वैली विनियर प्राईवेट लिमिटेड	नागालैन्ड

1	2	3	4
236.	14-02043	मैसर्स नगिनीमारा वुड क्राफ्ट प्राईवेट लिमिटेड	नागालैन्ड
237.	02-04019	मैसर्स जिगाबाइट कम्प्यूटर्स प्राईवेट लिमिटेड	आसाम
238.	23-02866	मैसर्स पतकोइ हर्बल्स प्राईवेट लिमिटेड	अरुणाचल प्रदेश
239.	23-02867	मैसर्स शेखर विश्वनाथ प्राईवेट लिमिटेड	अरुणाचल प्रदेश
240.	14-02236	मैसर्स तिरू प्लाईवुड प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	नागालैन्ड
241.	13-01035	मैसर्स ओसवेल गिरि एण्ड कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड	मेघालय

के. आनन्द राव
कम्पनी का रजिस्ट्रार
उत्तर-पूर्वी क्षेत्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों
के विषय में।

कटक-753001, दिनांक 19 जुलाई 2005

सं. 1028--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के अवसान पर निम्नलिखित कम्पनियों का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से नाम काट दिया जाएगा और इन कम्पनियों को विघटित कर दिया जाएगा :--

क्रम सं.	कम्पनी सं.	कम्पनी का नाम
1	2	3
1.	15-02016	मैसर्स होटल राही रिसोर्ट प्राईवेट लिमिटेड
2.	15-05209	मैसर्स कनक मंजरी इन्स्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलोजी प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
3.	15-05950	मैसर्स बहालिया टूरिज्म एडवर्टाइजिंग एण्ड प्रमोशन प्राईवेट लिमिटेड
4.	15-02230	मैसर्स सुल्लगना (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड
5.	15-05651	मैसर्स राधा गोविन्दो होटल प्राईवेट लिमिटेड
6.	15-05754	मैसर्स एमएक्स-इन्फोटेक प्राईवेट लिमिटेड
7.	15-06501	मैसर्स मिलेनियम ब्रिक्स प्राईवेट लिमिटेड
8.	15-06817	मैसर्स फ्लाई स्पेस मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
9.	15-05318	मैसर्स अकार बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड
10.	15-02423	मैसर्स शक्ति क्राफ्ट प्राईवेट लिमिटेड
11.	15-05889	मैसर्स चन्द्रा स्वेच्छावास प्राईवेट लिमिटेड

देवेन्द्र सिंह

सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
उड़ीसा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स कैतामना चिट्ठी फण्ड्स
प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

कोच्ची-682021, दिनांक 25 मई 2005

सं. 560(3)/3088/2005--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो मैसर्स कैतामना चिट्ठी फण्ड्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम रजिस्टर से नाम काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

संजय सूद
सहायक पंजीयक
केरल

UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION

New Delhi-110 069, the 9th March 2005

No. A. 32014/2/2004-Admn. III.—Consequent upon her nomination to the CSS cadre of Union Public Service Commission vide Department of Personnel & Training OM No. 21/9/2004-CS. I (Pt.) dated 17th February, 2005, the President is pleased to promote Smt. Bimla Minz, a regular Assistant (Select List-1994) of Department of Commerce as Section Officer on ad hoc basis in the CSS Cadre of Union Public Service Commission w.e.f. the forenoon of 28th February, 2005 until further orders.

2. The promotion of Smt. Bimla Minz as Section Officer on ad hoc basis will be subject to the following conditions :

- (i) Ad hoc promotions have been made purely as a stop-gap arrangement and shall not confer any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Section Officer's grade.
- (ii) Ad hoc arrangements may continue till regular candidates in Section Officers grade are available through Seniority Quota and/or Limited Departmental Competitive Examination (LDCE). In the event of the ad hoc appointees not qualifying for regular appointment in either of these two categories, they will be reverted to the Assistant's grade on availability of such regular Section Officers.

S. ANANDAN
Under Secy.

The 1st June 2005

No. A-19014/10/2004-Admn. I.—The President is pleased to appoint Shri Sakesh Prasad Singh, ICAS (95) as Deputy Secretary in the scale of pay of Rs. 12000-375-16500/- in the Office of the Union Public Service Commission for a period of four years w.e.f. the forenoon of 1st June, 2005 or until further orders, whichever is earlier.

S. ANANDAN
Under Secy. (Admn.)

The 7th June 2005

No. A-19011/2/2003-Admn. I.—On completion of his tenure, Shri Parthasarathi Mitra, IAS (HP : 78), presently on central deputation as Additional Secretary, UPSC, shall stand relieved of his duties in the Commission's office w.e.f. the afternoon of 15th June, 2005. Shri Parthasarathi Mitra has, however, been sanctioned Earned Leave for 58 days w.e.f. 16th June, 2005 to 12th August, 2005 (with 13th, 14th and 15th August, 2005 as suffix) in terms of DOP&Trg. OM No. 27(38)-EO/87 (SM) dated 20th May, 1987.

On expiry of his leave, Shri Parthasarathi Mitra shall report for duty in his cadre, viz. Government of Himachal Pradesh, Shimla.

S. ANANDAN
Under Secy. (Admn.)

The 22nd June 2005

No. A-19012/1/2004-Admn. III.—The President is pleased to permit Shri R. K. Sharma, Desk Officer of the CSS Cadre of Union Public Service Commission to retire voluntarily from Government service with effect from the forenoon of 1st July, 2005 in terms of Rule 48-A of the CCS (Pension) Rules, 1972, at his own request.

S. ANANDAN
Under Secy (Admn)

The 30th June 2005

No. A-38012/1/2005-Admn. I.—The President is pleased to permit Shri K. C. Katoch, CSS, working as Deputy Secretary in UPSC to retire from Government service on attaining the age of superannuation with effect from the afternoon of 30th June, 2005.

S. ANANDAN
Under Secy. (Admn.)

No. A-38013/1/2005-Admn. I.—The President is pleased to permit Shri K. B. Ahuja, CSSS, working as Private Secretary in UPSC to retire from Government service on attaining the age of superannuation with effect from the afternoon of 30th June, 2005.

S. ANANDAN
Under Secy. (Admn.)

The 1st July 2005

No. A-19011/06/2005-Admn. I.—The President is pleased to appoint Shri Vasumitra, IPoS (84), as Joint Secretary (Director level) in the scale of pay of Rs. 14300-400-18300/- in the Office of the Union Public Service Commission for a period of five years w.e.f. the forenoon of 1st July, 2005 or until further orders, whichever event takes place earlier.

S. ANANDAN
Under Secy. (Admn.)

No. A-19014/12/2003-Admn. I.—On the acceptance of his request for premature repatriation to his parent cadre vide Office of the Establishment Officer, DOP& Trg. O. M. No. 21/4/2003-EO (MM. I) dated 29th June, 2005, Shri Kalyan Nag, ICoAS (92), is relieved of his duties as Deputy

Secretary in the Commission's Office w.e.f. 1st July, 2005 (F/N) to enable him to avail of promotion in his cadre. He is directed to report to Director (Admn.), Tariff Commission in terms of Ministry of Finance (D/o Expenditure) Order No. A-32013/2/2004-Ad. I dated 15th June, 2005.

S. ANANDAN
Under Secy. (Admn.)

No. A-32011/1/2005-Admn. I.—The President is pleased to appoint Shri M. P. Singh, ICoS (88), Deputy Secretary, UPSC as Joint Secretary (Director level) in the Union Public Service Commission, in the scale of pay of Rs. 14300-400-18300 w.e.f. 1st July, 2005 for the balance period of his deputation which would be upto 6.09.2006 or until further orders, whichever is earlier.

Shri M. P. Singh counts his tenure at centre w.e.f. 7.9.2001.

S. ANANDAN
Under Secy. (Admn.)

The 4th July 2005

No. A-19011/07/2005-Admn. I.—The President is pleased to appoint Shri Biresh Kumar, IAS (UP : 83) to the post of Additional Secretary, Union Public Service Commission in the pay scale of Rs. 18400-500-22400/- w.e.f. the forenoon of 4th July, 2005 for a period of five years, or until further orders, whichever is earlier.

S. ANANDAN
Under Secy. (Admn.)

CENTRAL VIGILANCE COMMISSION

New Delhi, the 19 July 2005

No. 2/39/05-Admn.—The Central Vigilance Commissioner hereby appoints the following Personal Assistants in the Commission as Private Secretaries, in that order, in the scale of pay of Rs. 6500-200-10500/-, on ad-hoc basis, with effect from the forenoon of 15.07.2005 for a period of three months or until further order, whichever is earlier :—

1. Shri Raj Kumar Chowdhry,
2. Shri T. Jagannadha Rao,
3. Smt. Tripta Arora,
4. Smt. Jaspal Kaur; and
5. Shri K. Jagdeesh Babu.

2. Appointment of the above officials to the post of Private Secretary is purely temporary and on ad hoc basis under rule 9 of the CVC (Staff) rules, 1964 as amended

from time to time and will not bestow upon them any claim for regular appointment.

MANGE LAL
Dy. Secy.
for Central Vigilance Commissioner

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

DIRECTORATE GENERAL, CRPF

New Delhi-110 003, the 15th July 2005

No. O. II. 3941/05-PF-Pers-1.—Vide Dte Genl, CRPF, Order No. D. IX. 15/2001-CRC dated 22nd June 2005 Competent Authority has imposed penalty of compulsory retirement on Shri A. G. Swamy, Asstt. Comdt. (IRLA NO. 3941) (now Dy. Comdt of GC, CRPF, Avadi.). Accordingly, above officer has relinquished the charge of his post on 24.06.2005 (AN). Hence the name of the officer stands deleted from the strength of the force with effect from 24.06.2005 (AN).

J. N. SHARMA
Addl. DIGP (Pers.-1)

The 16th July 2005

No. O. II. 1360/77. Pers I.—Vide Dte Genl, CRPF Order No. D. IX-15/2001-CRC dated 22nd June 2005 Competent Authority has imposed penalty of compulsory retirement on Shri S. Ramalingam, (IRLA-1546) Commandant of RTC-2, CRPF, Avadi. Accordingly, above officer has relinquished the charge of his post on 25.06.2005 (AN). Hence the name of the officer stands deleted from the strength of the force with effect from 25.06.2005 (AN).

J. N. SHARMA
Addl. DIGP (Pers. I)

DIRECTORATE GENERAL CENTRAL INDUSTRIAL SECURITY FORCE

New Delhi-03, the 18th July 2005

No. E-16015(2)/2/2003/Pers. I/17.—The President is pleased to apopoint the following Inspectors/Exe on regular promotion to the rank of Assistant Commandant/Exe in the pay scale of Rs. 8000-275-13500/- in CISF with effect from the date noted against each :—

Sl. No.	Name of Officer	Office/Unit where assumed the charge	Date of assumption of charge as Assistant Commandant/ Exe on regular basis
1	2	3	4
	S/Shri		
1.	Surendra Singh	5th Res Ben, Ghaziabad	21.04.2005 (AN)
2.	M. Umar Khan	SPM, Hoshangabad	16.04.2005 (FN)

1	2	3	4
3.	S/Shri A. K. Verma	KSTPP, Korba	17.05.2005 (AN)
4.	G. S. Patwal	BCCL, Dhanbad	01.06.2005 (FN)
5.	Babu Ram Rana	BCCL, Dhanbad	11.05.2005 (FN)
6.	Md. Suhail Siddiqui	KTPS, Kota	02.05.2005 (FN)
7.	Jai Prakash Singh	Kh STPP, Kahalgaon	16.04.2005 (FN)
8.	Yash Paul	NAPS, Narora	16.04.2005 (FN)
9.	Prakash Chand Tyagi	CCL, Kargali	24.05.2005 (FN)
10.	Sidh Nath Singh	TTPP/NTPC, Tanda	30.05.2005 (FN)
11.	Linga Raj Padhy	RTC, Deoli-I	24.05.2005 (FN)
12.	P. K. Nair	2nd Rds. Bn., Delhi	23.06.2005 (FN)
13.	Ram Suresh Ran	PTPP, Parichha	16.04.2005 (FN)
14.	S. Pankraj	HAL, Pimpri	29.04.2005 (AN)
15.	Anil Kishore	NTPC, Sipat (Bilaspur)	30.04.2005 (FN)
16.	R. Kanagaraj	HPCL, Mumbai	16.05.2005 (FN)
17.	Babhighan Singh	MPT, Goa	18.04.2005 (FN)
18.	Harjinder Singh Uppal	RTC, Bhilai	29.04.2005 (FN)
19.	K.B. Janga Reddy	ONGC, Narsapur	21.05.2005 (FN)
20.	A. Balakrishnan	SDSC, SHAR	18.04.2005 (FN)
21.	K. Korappan	KAPS, Kakarpar	28.04.2005 (FN)
22.	Shaik Nazeemuddin	RTC, Arakkonam	27.04.2005 (FN)
23.	V. V. Krishnaiah	VSP, Visakhapatnam	05.05.2005 (FN)
24.	H. R. Minhas	Bhuntar (Kullu), Airport	10.05.2005 (FN)
25.	Ram Lal Pardeshi	VSTPS, Vindhyanager	03.05.2005 (FN)
26.	K. I. Joseph	RTC, Arakkonam	29.04.2005 (FN)
27.	Bishnu Kumar Yamuna	Bhubaneswar Airport	26.04.2005 (FN)
28.	Shyama Prasad Sinha	PPT, Paradip	30.05.2005 (FN)
29.	Subrata Kumar Saha	TTPS (NTPC), Talcher	10.05.2005 (FN)

1	2	3	4
30.	S/Shri Baldev Singh Bhinder	RTC, Barwaha	16.04.2005 (FN)
31.	Ghan Shyam Sharma	ONGC, Mumbai	25.04.2005 (FN)
32.	Banshidhar Sundra	HDC, Haldia	11.05.2005 (FN)
33.	Sukram Pal	BCCL, Dhanbad	16.05.2005 (FN)
34.	P. K. Joy	IGI Airport, Delhi	04.05.2005 (FN)
35.	K. Gopala Krishnan	IGI Airport, Delhi	05.05.2005 (AN)
36.	G. N. Purkaystha	Kolkata Airport	11.05.2005 (FN)
37.	K. P. Gopinathan	NLC, Neyveli	06.05.2005 (FN)
38.	B. K. Gandha	IOC, Barauni	26.05.2005 (FN)
39.	Surender Singh Manral	ZOW, Saket	27.04.2005 (AN)
40.	N. K. Butches	IOC, Haldia	24.05.2005 (FN)
41.	Arvind Chauhan	IGI Airport, Delhi	24.04.2005 (AN)
42.	Gokal Chand	RTC, Deoli-II	16.04.2005 (FN)
43.	B. Sasidharan Pillai	BCCL, Dhanbad	16.05.2005 (FN)
44.	C. L. Lingwai	ZOW, Kolkata	13.05.2005 (FN)
45.	N. Mukundan	HPCL (VR), Vizag	09.05.2005 (FN)
46.	Mohan Singh Bisht	RTC, Barwaha	20.06.2005 (FN)
47.	Nand Kishore	CNP, Nasik	10.05.2005 (FN)
48.	Raj Nath Singh	ATPP, Anpara	30.04.2005 (FN)
49.	Gulsher Ali	OTHP, Obra	06.05.2005 (FN)
50.	Satvir Singh	GP HQ, Chandigarh	02.05.2005 (FN)
51.	K. Tamil Selvan	BRPL, Bongaigaon	29.04.2005 (FN)
52.	Suresh Chander	Agartala Airport	16.04.2005 (AN)
53.	Yashwant Singh	IGI Airport, Delhi	20.04.2005 (FN)
54.	S. N. Shukla	Goa Airport	18.04.2005 (FN)
55.	Banamali Rout	NSPCL, Durgapur	30.05.2005 (FN)

1	2	3	4	1	2	3	4
	S/Shri				S/Shri		
56.	K. S. T. Nair	Calicut Airport	19.05.2005 (FN)	71.	Debia Oraon	BTPS (DVC), Bokaro	29.04.2005 (FN)
57.	P. K. Kushalappa	BHEL, Bhopal	02.05.2005 (FN)	72.	P. Kaliamoorthy	6th Res Bn, Arakkonam	11.05.2005 (FN)
58.	K. C. Patra	NTPC/TSTPP, Kaniha	28.04.2005 (FN)	73.	C. Kathiresan	NMPT, Mangalore	18.04.2005 (FN)
59.	S. A. Khan	Varanasi Airport	11.05.2005 (FN)	74.	J. H. Raj	NLC, Neyveli	11.05.2005 (FN)
60.	M. D. Murthy	Ch. PT, Chennai	20.04.2005 (FN)	75.	Haradhan Das	OPS, Noonmati	23.05.2005 (AN)
61.	Md. Allauddin	UCIL, Jaduguda	13.06.2005 (FN)	76.	A. Sankaran	VSSC, Thumba	12.05.2005 (FN)
62.	I. S. Boyanla	Patna Airport	13.06.2005 (AN)	77.	K. M. Krishnan Kutty	VSSC, Thumba	26.04.2005 (FN)
63.	Guru Iqbal Singh	DHEP, Dulhasti	25.04.2005 (FN)	78.	P. K. Suresh Babu	NTPC, Kayamkulam	18.04.2005 (FN)
64.	Harpal Singh	GOF, Ghazipur	09.05.2005 (FN)	79.	I. S. Nabilal	CCL, Kargali, (Dhori)	24.05.2005 (FN)
65.	G. Laxman Alone	ONGC, Ankleshwar	29.04.2005 (AN)	80.	K. K. Thankappan	NLC, Neyveli	24.05.2005 (FN)
66.	Harvir Singh	Mumbai Airport	06.05.2005 (FN)	81.	K. K. Mohanan	NLC, Neyveli	07.05.2005 (FN)
67.	Sukhvir Singh	NPC, Kaiga	02.05.2005 (FN)	82.	M. Rajamohanan	KIOCL, Kudremukh	18.04.2005 (FN)
68.	Desu Ram	NFL, Nangal	29.04.2005 (FN)	83.	M. R. Bhagat	RSP, Rourkela	16.04.2005 (FN)
69.	Vijay Singh	NTPC/BSTPP, Barh	30.05.2005 (FN)	84.	Mahendra Doimari	ONGC, Jorhat	21.04.2005 (FN)
70.	Ramjiyawan	SAC (PRL), Ahmedabad	24.05.2005 (FN)	85.	M. Kerketta	RSP, Rourkela	04.05.2005 (FN)

Sd/- ILLEGIBLE
Director General

No. E-15014/1/2005/Pers. II/2149—The Competent Authority is pleased to declare satisfactory completion of probation period in respect of following Assistant Commandants (Exe/JAO) and confirm in the respective rank in respect of directly recruited Assistant Commandant (Exe.), as per details given below :—

Sl. No.	Name of Officer	Rank	Date of promotion/ appt. as AC	Probation period completed satisfactorily on	Date of confirmation, if any	Unit
1	2	3	4	5	6	7
	S/Shri					
01.	A. P. Singh	AC/Exe	22.12.02/AN	22.12.04	23.12.04	NALCO, Damanjod
02.	Ms. Neeli Mittal	Do.	22.12.02	21.12.04	22.12.04	BTPS, Badarpur
03.	K. L. Gamba	Do.	29.04.02/AN	29.04.05	—	SHAR Centre
04.	R. G. Sharma	Do.	20.02.03	19.02.05	—	5th RB Ghaziabad
05.	B. N. Kharakwal	Do.	11.02.03	10.02.05	—	P&HS Chandigarh
06.	R. K. Tyagi	Do.	31.01.03	30.01.05	—	CISFHQrs
07.	A. L. Sharma	Do.	03.03.03	02.03.05	—	SHEP Sewa-II

1	2	3	4	5	6	7
	S/Shri					
08.	G. L. Swamy	AC/Exe	03.02.03	02.02.05	—	BESCL, Bhilai
09.	Chand Singh	Do.	04.02.03	03.02.05	—	DMR, Panna
10.	J. P. Sharma	Do.	15.03.03	14.03.05	—	ETCL, Mumbai
11.	A. N. Moon	Do.	04.02.03	03.02.05	—	RTC, Arakonam
12.	K. L. Singh	Do.	01.02.03	31.01.05	—	KIOM, Kiriburu
13.	K. M. Sant	Do.	31.01.03	30.01.05	—	PtPS, Patratu
14.	Ranjit Singh	Do.	14.02.03	13.02.05	—	THEP, Banbasa
15.	Jagjivan Prasad	Do.	17.02.03	16.02.05	—	GAIL, Pata
16.	V. S. Birole	AC/JAO	27.05.03	26.05.05	—	Mumbai Airport
17.	G. C. Chattopadhyay	Do.	02.06.03	01.06.05	—	NES HQr, Kolkata
18.	C. L. Kam	Do.	06.06.03	05.06.05	—	6th RB Arakonam
19.	S. N. Manjhi	Do.	11.06.03	10.06.05	—	ES HQr Patna

Sd/- ILLEGIBLE
Director General

MINISTRY OF FINANCE
(DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS)
INDIAN SECURITY PRESS

Nashik Road, the 16th July 2005

No. 431/G/EST-18-1—On the recommendations of the Departmental Promotion Committee (Group 'B') and approval of the General Manager, I.S.P., the following Inspectors Control, are appointed to the post of Deputy Control Officer (Group 'B' Gazetted) in the scale of pay of Rs. 6500-200-10500/- by promotion on regular basis, with effect from the date shown against their name, in the following order of seniority :-

Sl. No.	Name	Date of promotion
1.	Mr. A. T. Sonawane (SC)	14.07.2005
2.	Mr. P. G. Ghagie	12.07.2005
3.	Mr. Y. M. Shauche	12.07.2005

They will be on probation for a period of 2 (two) years.

PRAKASH NARAYAN
General Manager

INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPTT.
OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL
(AUDIT), KERALA

Thiruvananthapuram, the 25th July 2005

No. Au./Admn. III/9-1/Vol. II.—The following Audit Officers have been promoted as Senior Audit Officers in the

scale of pay of Rs. 8000-275-13500/- with effect from the date indicated against each :-

Sl. No.	Name	Date of assumption of charge
	S/Shri/Smt.	
1.	PP Sreedharan	03.01.2005 FN
2.	VN Krishnakutty Nair	03.01.2005 FN
3.	N Ramachandran Nair (No. 5)	03.01.2005 FN
4.	P Aravindakshan (No. 2)	03.01.2005 FN
5.	N Parthasarathy	03.01.2005 FN
6.	P Aravindakshan (No. 1)	03.01.2005 FN
7.	N Sasidharan Nair	03.01.2005 FN
8.	MK Sathyavageswaran	03.01.2005 FN
9.	K Hari (No. 2)	03.01.2005 FN
10.	R Sasidharan Pillai	03.01.2005 FN
11.	OM Mathew	03.01.2005 FN
12.	M Kurien	03.01.2005 FN
13.	VP Somasekharan	03.01.2005 FN
14.	N Sreenivasan (No. 2)	03.01.2005 FN
15.	K Aravindakshan (No. 2)	03.01.2005 FN
16.	K Anilkumar (No. 2)	03.01.2005 FN
17.	PK Balan (No. 2)	01.04.2005 FN
18.	KJ Varghese	01.04.2005 FN

Sd/- ILLEGIBLE
Sr. Dy. Accountant General (Admn.)

No. Au./Admn. III/9-1/Vol. II.—The following Assistant Audit Officers have been promoted as Audit Officers in the scale of pay of Rs. 7500-250-12000/- with effect from the date indicated against each :—

Sl. No.	Name	Date of assumption of charge
	S/Shri/Smt.	
1.	KV Dinamani	02.08.2004 FN
2.	Philip Thomas	02.08.2004 FN
3.	KP Kesavan Nair	01.10.2004 FN
4.	A Manuel	01.10.2004 FN
5.	OV Cicily	01.11.2004 FN
6.	MT Antony	01.11.2004 FN
7.	K Abdul Latheef	01.11.2004 FN
8.	KA Kuriakose	01.11.2004 FN
9.	N Sreedharan Nampoothiri	17.12.2004 AN
10.	P Gopinathan Nair	03.01.2005 FN
11.	M Ramabhadran Pillai	03.01.2005 FN
12.	VJ Joseph (No. 3)	03.01.2005 FN
13.	Endira Devi	01.02.2005 FN
14.	N Ravindranath	01.04.2005 FN
15.	R Radhakrishnan	01.06.2005 FN
16.	S Neelakantha Iyer	01.06.2005 FN

Sd/- ILLEGIBLE
Sr. Dy. Accountant General (Admn.)

No. Au./Admn. III/9-1/Vol. II.—The following Section Officers have been promoted as Assistant Audit Officers in the scale of pay of Rs. 7450-225-11500/- with effect from the date indicated against each :—

Sl. No.	Name	Date of assumption of charge
	S/Shri/Smt.	
1.	K Ramachandran (No. 2)	05.07.2004 FN
2.	EV Samuel	15.07.2004 FN
3.	S Mohammed Maheen	02.08.2004 FN
4.	MP Hamsa	02.08.2004 FN
5.	N Narayanan Embrandiri	02.08.2004 FN
6.	K Thulasiedharan	10.09.2004 FN
7.	G Ramachandran Nair	24.09.2004 FN
8.	AK Vasantha	01.10.2004 FN

1	2	3
9.	O Balachandran	01.11.2004 FN
10.	M Sreesakumar	01.11.2004 FN
11.	S Clement	01.11.2004 FN
12.	K Alex Xavier	03.01.2005 FN
13.	PG Ramesh	03.01.2005 FN
14.	Mariammathew	03.01.2005 FN

Sd/- ILLEGIBLE
Sr. Dy. Accountant General (Admn.)

MINISTRY OF MINES
(INDIAN BUREAU OF MINES)

Nagpur, the 19th July 2005

No. A-19011/211/2005-Estt. A.—On the recommendation of the Departmental Promotion Committee Shri B. B. Tiwari, Mineral Officer (Int.) has been promoted to the post of Assistant Mineral Economist (Int) in Indian Bureau of Mines at Nagpur w.e.f. 4.7.2005 (F. N.).

S. K. BATAV
Senior Admn. Officer
for Controller General

The 20th July 2005

No. A-19011/231/2005-Estt. A.—On the recommendation of the Departmental Promotion Committee Shri A. G. Patukale, Mineral Officer (Int.) has been promoted to the post of Assistant Mineral Economist (Int) in Indian Bureau of Mines at Nagpur w.e.f. 4.7.2005 (F. N.).

S. K. BATAV
Senior Admn. Officer
for Controller General

The 21st July 2005

No. A-19011/279/99-Estt. A.—On the recommendation of the Departmental Promotion Committee Dr. Abdul Rahman, Senior Mining Geologist has been promoted to the post of Regional Mining Geologist in Indian Bureau of Mines at at South Zone Bangalore w.e.f. 4.7.2005 (F. N.).

S. K. BATAV
Senior Admn. Officer
for Controller General

SURVEY OF INDIA

(SURVEYOR GENERAL'S OFFICE)

Dehradun-248001, the 18th July 2005

No. C-249/707—The undermentioned Group 'C' Division-I (Surveyors/Survey Assistants) are promoted as

Officer Surveyor, Group 'B' Post in Survey of India on regular basis in the Scale of Pay Rs. 6,500-200-10,500/- with effect from the date(s) as shown against each :—

Sl. No.	Name	Date of Promotion
1	2	3
1.	Shri M. K. Mishra	31.12.2004
2.	Shri G. L. Kukreti	31.12.2004
3.	Shri Sushil Mohan	31.12.2004
4.	Shri M. P. Bhatt	05.01.2005
5.	Shri N. K. Kshatriya	31.12.2004
6.	Shri G. C. Bhattacharjee	31.12.2004
7.	Shri M. R. Paul	31.12.2004
8.	Shri D. P. Bahuguna	31.12.2004
9.	Shri Jai Singh	31.12.2004
10.	Shri Ratan Dey Sarkar	03.01.2005
11.	Shri Vijay Singh	31.12.2004
12.	Shri V. Unnikrishnan	31.12.2004
13.	Shri A. S. Bhatnagar	31.12.2004
14.	Shri Harbir Singh	31.12.2004
15.	Shri D. C. Mamgain	31.12.2004
16.	Shri M. Parvathiesam	31.12.2004
17.	Shri T. Krishna Kumar	31.12.2004
18.	Shri Sardar Singh	31.12.2004
19.	Shri D. K. Khanna	31.12.2004
20.	Shri A. K. Kaul	31.12.2004
21.	Shri Shiv Singh Rawat	31.12.2004
22.	Shri D. D. Baruah	06.01.2005
23.	Shri B. S. Aswal	31.12.2004
24.	Shri L. N. Chibbar	31.12.2004
25.	Shri M. M. Parmar	31.12.2004
26.	Shri Dilip Kumar	31.12.2004
27.	Shri Santosh Agarwal	31.12.2004
28.	Shri Y. S. Rawat	06.01.2005
29.	Shri K. S. Rana	31.12.2004
30.	Shri N. K. Gupta	31.12.2004
31.	Shri K. Srivatsa	31.12.2004
32.	Shri B. B. Saxena	31.12.2004
33.	Shri M. L. Bhat	31.12.2004

1	2	3
34.	Shri P. C. Borole	31.12.2004
35.	Shri Pritam Singh	31.12.2004
36.	Shri Jagabandu Muduli	05.01.2005
37.	Shri M. K. R. Pillai	31.12.2004
38.	Shri C. K. Mukherjee	31.12.2004
39.	Shri S. B. Uniyal	31.12.2004
40.	Shri S. K. Joshi	31.12.2004
41.	Shri Santosh Kumar	31.12.2004
42.	Shri Mohinder Singh	31.12.2004
43.	Shri K. C. Ojha	06.01.2005
44.	Shri Vijay Kumar Gairola	31.12.2004
45.	Shri Ram Kunwar	19.01.2005
46.	Shri S. P. Badoni	31.12.2004
47.	Shri M. K. Tewari	31.12.2004
48.	Shri Purusottam Jena	31.12.2004
49.	Shri G. N. P. Rao (SC)	31.12.2004
50.	Shri Deep Chand (SC)	10.01.2005
51.	Shri B. M. Parmar (SC)	31.12.2004
52.	Shri Yogendra Kumar (SC)	31.12.2004
53.	Shri Dharam Pal Singh (SC)	31.12.2004
54.	Shri G. B. Nagarare (SC)	31.12.2004
55.	Shri Rajinder Singh (SC)	31.12.2004

M. GOPAL RAO
Major General
Surveyor General of India

The 25th July 2005

No. C-305/718-A—The undermentioned Office Superintendents are hereby promoted as Establishment & Accounts Officer (GCS Group 'B' Post) in Survey of India in the pay scale of Rs. 7,450-225-11,500/- on regular basis with effect from the dates as shown against their names :—

Sl. No.	Name	Date of Promotion
1	2	3
1.	Shri Ganesh Lal Bhil (ST)	21.02.2005
2.	Shri A. J. Baby	16.02.2005
3.	Shri B. L. Yadav	01.03.2005
4.	Shri L. N. Sharma	01.04.2005
5.	Shri V. Prabhakar	01.04.2005

1	2	3
6.	Shri M. N. Chibbar	02.05.2005
7.	Shri N. V. Prasad	02.05.2005
8.	Shri R. C. Verma	29.06.2005
9.	Shri Madho Singh Rawat	01.06.2005
10.	Shri H. S. Gulati	01.06.2005

M. GOPAL RAO
Major General
Surveyor General of India

No. C-324/594—The undermentioned Senior Reprographers are hereby promoted as Assistant Manager (Map Reproduction) General Central Service Group 'B' Post (Gazetted) in Survey of India in the Pay Scale of Rs. 6,500-200-10,500/- on ad hoc basis with effect from the date(s) as shown against their names :—

Sl. No.	Name	Date of Promotion
1.	Shri K. Hanumantha Rao (ST)	11.04.2005
2.	Shri C. S. Thapa	31.03.2005
3.	Shri B. P. Sharma	31.03.2005

M. GOPAL RAO
Major General
Surveyor General of India

MINISTRY OF AGRICULTURE
(DEPARTMENT OF AGRICULTURE & COOPERATION)
DIRECTORATE OF PLANT PROTECTION,
QUARANTINE AND STORAGE

Faridabad-121 001, the 14th July 2005

No. 7-10/2004-Admn. I.—Sh. C. C. Sambharkar, Plant Protection Officer (Ent.) in the Directorate of Plant Protection, Quarantine and Storage, Faridabad expired on 19.5.2005.

MOHAN PARKASH
Dy. Secy. & Chief Administrative Officer

BHABHA ATOMIC RESEARCH CENTRE

Mumbai-85, the 19th July 2005

CORRIGENDUM

No. PD/7 (17)/2004-R-IV/907—The effective date of appointment of Smt. Aruna Kadam, Scientific Assistant (C) of the Bhabha Atomic Research Centre as Scientific Officer/Engineer Grade "SB" in the same Research Centre notified vide this Research Centre's Notification on even No. dated February 14, 2005, is amended to read as May 1, 2005 (FN) instead of August 16, 2004 (FN).

K. C. DIVAKARAN
Dy. Estt. Officer

DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY

Mumbai-400 001, the 19th July 2005

No. 20/3 (1)/2004-CCS/Vol. II/30—The President is pleased to appoint Shri Nellamattom Joseph Simon, Administrative Officer-II (Scale of pay Rs. 7500—12000/-), Bhabha Atomic Research Centre, Mumbai of this Department as Administrative Officer-III (Scale of pay Rs. 10000—15200/-) in Heavy Water Board, Mumbai with effect from the forenoon of 30.06.2005 until further orders.

SOBHA DEVI N.
Under Secy.

Mumbai-400 001, the 21st July 2005

No. 6 (1037)/87/Adm. 5388—The President is pleased to appoint Shri P. V. Jayaprakash, Deputy Controller of Accounts (Scale of pay of Rs. 10,000-325-15,200/-), DAE as Under Secretary in the scale of pay of Rs. 10,000-325-15,200/- in the same Department with effect from the forenoon of July 1, 2005 for a period of 3 years or until further orders whichever is earlier.

P. P. MADHAVAN KUTTY
Under Secy.

CENTRE FOR ADVANCED TECHNOLOGY

Indore-452 013, the 20th July 2005

No. CAT/Admn/R-807 (2)/628—Director, Centre for Advanced Technology, Indore has appointed Shri P. D. Shring., Assistant Accounts Officer to officiate as Accounts Officer in the scale of pay of Rs. 7500-250-12000 on ad hoc basis with effect from the forenoon of 03.05.2005 to 08.06.2005 (AN) against leave vacancy.

D. S. RAO
Chief Administrative Officer

No. CAT/Admn/R-807(2)/629—Director, Centre for Advanced Technology, Indore has appointed Shri K. K. Rambadiya, U. D. C. to officiate as Assistant Accounts Officer in the scale of pay of Rs. 7450-225-11500/- on ad hoc basis with effect from the forenoon of 03.05.2005 to 08.06.2005 (AN) against leave vacancy.

D. S. RAO
Chief Administrative Officer

No. CAT/2000-Adm/R-902 (1)/631—The President is pleased to appoint the following Scientific Officers in a substantive capacity to the grade and with effect from the date indicated against each in Centre for Advanced Technology, Indore.

Sl. No.	Name	Design	w.e.f.
1.	Dr. Maulindu Kumar Chautopadhyay	SOD	1.4.2004
2.	Shri Vikas Kumar Jain	SOD	1.4.2003
3.	Shri Subrata Das	SOD	Do.
4.	Smt. Sampa Gangopadhyay	SOD	Do.
5.	Shri Bhaskar Biswas	SOD	Do.
6.	Shri K Lakshmi Narayanan	SOD	Do.
7.	Shri Nakul	SOC	1.10.2003
8.	Shri Bhupinder Singh	SOC	Do.
9.	Shri Shankar Lal	SOC	Do.
10.	Shri Deepak Kumar Sharma	SOC	Do.
11.	Shri Yogesh Verma	SOC	Do.
12.	Kum. Pragya Pandit	SOC	Do.
13.	Shri Amit Upadhyay	SOC	Do.
14.	Shri Manoj Kumar Saxena	SOC	Do.
15.	Shri Ravdheer Singh Saini	SOC	Do.
16.	Shri D. A. Mishra	SOC	Do.
17.	Shri Surjya Prakash Ram	SOC	Do.
18.	Dr. Zahid Beg Mirza	SOC	1.10.2004
19.	Shri Neeraj Goyal	SOC	Do.
20.	Shri V. P. Singh	SOC	Do.
21.	Shri Riyaat Husain	SOC	Do.
22.	Shri Rajiv Kumar	SOC	Do.
23.	Smt. Rachna Selvamani	SOC	Do.
24.	Shri Vishnu Kumar	SOC	Do.
25.	Shri Himanshu Singhal	SOC	Do.
26.	Shri Arijet Das	SOC	Do.
27.	Shri Khageswar Sahu	SOC	Do.

D. S. RAO
Chief Administrative Officer

The 21st July 2005

No. CAT/Admn/Rect-807 (I)/632—The Director, Centre for Advanced Technology, Indore hereby appoints Shri B. P. Joshi, Assistant Personnel Officer to officiate as Administrative Officer-II in the scale of pay Rs. 7500-250-12000 with effect from the forenoon of 5th July, 2005 in the Centre for Advanced Technology, Indore until further orders.

D. S. RAO
Chief Administrative Officer

The 22nd July 2005

No. CAT/Admn/Rect-807 (I)/639—The Director, Centre for Advanced Technology, Indore hereby appoints Shri J. K. Jade, Sr. Clerk to officiate as Assistant Personnel Officer in the scale of pay Rs. 6500-200-10500/- with effect from the forenoon of 18th July 2005 in the Centre for Advanced Technology, Indore until further orders.

D. S. RAO
Chief Administrative Officer

DIRECTORATE OF PURCHASE & STORES

Mumbai-400 094, the 7th July 2005

No. DPS/10010/Rectt./2805—The Director, Directorate of Purchase & Stores, Department of Atomic Energy has appointed Shri B. Anil Kumar, Purchase Assistant, Indore Regional Purchase Unit, CAT, Indore as Assistant Purchase Officer in the scale of pay of Rs. 6500-200-10500/- on ad hoc basis in the same Directorate w.e.f. 02.05.2005 (FN) to 17.06.2005 (AN).

KISHAN T. LONDHE
Administrative Officer-III

NUCLEAR FUEL COMPLEX

Hyderabad-500 062, the 21st July 2005

No. NFC/PAR. 11/2-2005/1614—The President is pleased to appoint the undermentioned Scientific Officers/Engineers and Scientific Assistant of Nuclear Fuel Complex, Hyderabad in the grades and with effect from the dates shown against them in the same unit, in an officiating capacity, until further orders :—

Sl. No.	Name	Promotion		Date of promotion
		From Gr.	To Gr.	
1	2	3	4	5
	S/Shri			
01.	D. Krishnamurthy	SO/D	SO/E	01.02.2005
02.	B. R. Acharya	"	"	01.02.2005
03.	N. V. Suryanarayana	"	"	01.02.2005
04.	P. Basaveswara Rao	"	"	01.02.2005
05.	U. Narayana Rao	"	"	01.02.2005
06.	R. Ethiraj	"	"	01.02.2005
07.	A. S. Rama Rao	"	"	01.02.2005
08.	A. Satyanarayana	"	"	01.02.2005
09.	Dr. B. Balaiah	"	"	01.02.2005
10.	S. Narasimha	"	"	01.02.2005

Scale of pay of SO(E)—Rs. 12000-375-16500

1	2	3	4	5
	S/Shri			
11.	V. O. S. N. Raju	SO/D	SO/E	01.02.2005
12.	K. Ramachandran	"	"	01.02.2005
13.	G. V. P. Shayan	"	"	15.02.2005
Scale of pay of SO(D)—Rs. 10000-325-15200				
01.	P. Malla Reddy	SO/C	SO/D	01.02.2005
02.	M. S. R. Krishnaiah	"	"	01.02.2005
03.	Ram Chitaranjan	"	"	01.02.2005
04.	K. V. K. Raju	"	"	01.02.2005
05.	P. Thyagaraj	"	"	01.02.2005
06.	R. Ramakrishna Raju	"	"	01.02.2005
07.	Md. Asadullah Shareef	"	"	01.02.2005
08.	M. Srinivasan	"	"	01.02.2005
Scale of pay of SO (C)—Rs. 8000-275-13500				
01.	Mohd. Siddiq	SO/SB	SO/C	01.02.2005
02.	Deenanath Singh	"	"	01.02.2005
03.	ALV. Kumar Reddy	"	"	01.02.2005
04.	D. V. R. Prasad	"	"	01.02.2005
05.	K. Purushothama Rao	"	"	01.02.2005
06.	K. Narasimha Rao	"	"	01.02.2005
07.	A. Bhimasankara Rao	SA/D	"	01.02.2005

G. KOTESWARA RAO
Administrative Officer

DIRECTORATE GENERAL OF CIVIL AVIATION

New Delhi-3, the 13th July 2005

No. A. 19011/90/80-E. I—The President is pleased to accept the notice under Rule 48-A of the Central Civil Service (Pension) Rules 1972, of Shri Bhushan Kumar, Deputy Director Research and Development in the office of the Director General of Civil Aviation regarding voluntary retirement with effect from 01.08.2005 (fore noon). Shri Bhushan Kumar Deputy Director Research and Development in the office of the Director General of Civil Aviation stands relieved of his duties with effect from the forenoon of 01.08.2005.

CHANAN RAM
Dy. Director of Administration

The 18th July 2005

CORRIGENDUM

In this Office Notification No. A. 32013/2/04-E. I dated 20.06.2005 regarding appointment of Shri K. S.

Balasubramanian, Deputy Director/Controller of Airworthiness to the grade of Director of Airworthiness on regular basis. The scale of pay mentioned in the said Notification may be corrected to read as "Rs. 14300-400-18300/-" instead of "Rs. 14,000-400-18300/-"

CHANAN RAM
Dy. Director of Administration

MINISTRY OF COMPANY AFFAIRS

(DEPARTMENT OF COMPANY AFFAIRS)

OFFICE OF THE REGISTRAR OF COMPANIES

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Farmers & Social Development Institute
(India) Limited

Kanpur-208001, the 18th July 2005

No. 560(3)/SES-05/3658/1255.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Farmers & Social Development Institute (India) Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

B. K. BANSAL
Registrar of Companies
Uttar Pradesh & Uttranchal

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Ruby Orient Hotels Private Limited

Kanpur-208001, the 18th July 2005

No. 560(3)/SES-05/3560/1260.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Ruby Orient Hotels Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

B. K. BANSAL
Registrar of Companies
Uttar Pradesh & Uttranchal

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Standard Generators Private Limited

Kanpur-208001, the 18th July 2005

No. 560(3)/SES-05/7845/1264.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Standard Generators

Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

B. K. BANSAL
Registrar of Companies
Uttar Pradesh & Uttranchal

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Supreme Exim Private Limited

Kanpur-208001, the 19th July 2005

No. 560(3)/SES-05/15778/1371.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Supreme Exim Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

B. K. BANSAL
Registrar of Companies
Uttar Pradesh & Uttranchal

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Shankar Developers and Builders Private Limited

Jaipur, the 19th July 2005

No. ROC/JPR/560/6686/1171.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of M/s. Shankar Developers and Builders Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Laxmi Breads Private Limited

Jaipur, the 15th July 2005

No. ROC/JPR/560/15525/1175.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of M/s. Laxmi Breads Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Vatsal Computers Private Limited

Jaipur, the 19th July 2005

No. ROC/JPR/560/15270/1179.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the

Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of M/s. Vatsal Computers Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
the following Companies

Bangalore-560 034, the 11th May 2005

No. STA/NKR/560(3)/SES-2005/2005-06.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of one month from the date hereof, the name of the following companies unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Companies will be dissolved :—

Sl. No.	Co. No.	Name of the company
1.	22835	M/s. Coalacco Laboratories (India) Pvt. Ltd.
2.	18216	M/s. Cypress Semiconductors India Pvt. Ltd.
3.	12201	M/s. Sonawala Physiotherapeutic Services Pvt. Ltd.
4.	23890	M/s. Sharp Hydraulics Equipments Pvt. Ltd.

SANTOSH KUMAR
Asstt. Registrar of Companies
Karnataka

In the matter of Companies Act, 1956 and of the
following Companies

Shillong-793 001, the 21st July 2005

No. TA/ROC/SES-03 & FT/560 (3)/1581—Notice is hereby given pursuant Sub-Section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that after the expiry of 3(three) months from the date hereof, the names of following 241 (two hundreds and forty one) companies, unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register of Companies in accordance with and subject to the provisions of Sub-section (5) of 560 of the said Act.

Sl. No.	Registra- tion No.	Name of the Company	Registered in the State of
1	2	3	4
1.	12-02243	M/s. Manipur Conductors and Cables Private Limited	Manipur
2.	02-06178	M/s. Dishya Manufacturing Co. Private Limited	Assam

1	2	3	4	1	2	3	4
3.	02-04600	M/s. Olongbar Finance & Investment Private Limited	Assam	30.	02-04934	M/s. Karmabhumi Media Service Private Limited	Assam
4.	02-01303	M/s. Modern Metal Moulders (Assam) Limited	Assam	31.	02-04958	M/s. Patwa Finance Company Private Limited	Assam
5.	02-05389	M/s. Bhagwati Plantations & Industries Private Limited	Assam	32.	14-2307	M/s. Supreme Veneers Private Limited	Nagaland
6.	14-02101	M/s. Aroma Timbers Private Limited	Nagaland	33.	23-06500	M/s. Kumki Agro Private Limited	Arunachal Pradesh
7.	02-02926	M/s. Blueark Engineering Limited	Assam	34.	02-03479	M/s. Luhit Valley Academy Private Limited	Assam
8.	23-02489	M/s. Dhruv Woodcraft Private Limited	Arunachal Pradesh	35.	14-02076	M/s. C. M. Industries Private Limited	Nagaland
9.	02-04797	M/s. Lekhapani Veneer and Saw Mills Private Limited	Assam	36.	02-02935	M/s. Silchar Roller Mills Private Limited	Assam
10.	02-04408	M/s. Associated Telecom Services Private Limited	Assam	37.	13-06883	M/s. Vishal Megha Carbide Private Limited	Meghalaya
11.	02-04720	M/s. H. K. Rajkhowa and Associates Private Limited	Assam	38.	02-04375	M/s. Optech Services Private Limited	Assam
12.	02-04936	M/s. Malbhog Bana Real Estates Private Limited	Assam	39.	02-04414	M/s. Jayanti Farming and Forestry Research Centre Private Limited	Assam
13.	02-04957	M/s. Golden India Finance and Investment Private Limited	Assam	40.	02-04412	M/s. Jayanti Tourism (North East) Private Limited	Assam
14.	02-05994	M/s. Assam Telelink Limited	Assam	41.	02-04336	M/s. OSPL Systems Private Limited	Assam
15.	02-03850	M/s. Kamakhya Composite Farm Private Limited	Assam	42.	02-01804	M/s. Build-House Company Private Limited	Assam
16.	02-04939	M/s. Luit Graphica Design Studio Private Limited	Assam	43.	02-04725	M/s. Sugam Vyapar Private Limited	Assam
17.	14-05464	M/s. Hill Tea Estate Private Limited	Nagaland	44.	02-00612	M/s. Jalan Textile Mills Limited	Assam
18.	14-05048	M/s. Shakti Shoe Co. Private Limited	Nagaland	45.	02-06705	M/s. Precision Scrip Private Limited	Assam
19.	02-02770	M/s. Giristain Castings Private Limited	Assam	46.	02-06914	M/s. Promise Marketing Private Limited	Assam
20.	02-04202	M/s. G. S. Securities Private Limited	Assam	47.	14-02179	M/s. Blue Valley Forest Products Private Limited	Nagaland
21.	02-02763	M/s. Zenith India Surgicals Private Limited	Assam	48.	02-01894	M/s. Dhandaria's Accounting & Computer Services Private Limited	Assam
22.	02-05552	M/s. Jivan Jyoti Finance & Investment Private Limited	Assam	49.	13-03131	M/s. Jasper Marketing Enterprises Private Limited	Meghalaya
23.	02-03605	M/s. Matri Coal Co. Private Limited	Assam	50.	13-03751	M/s. Jasper Agro Foods Limited	Meghalaya
24.	13-01544	M/s. Meghalaya Spinning Mills Private Limited	Meghalaya	51.	23-04616	M/s. Arunachal Pradesh Cement Private Limited	Arunachal Pradesh
25.	02-03776	M/s. Ganapati Diesel Sales & Services Private Limited	Assam	52.	02-02790	M/s. Audio Phile Private Limited	Assam
26.	14-02002	M/s. Lower Tiru Forest Products Private Limited	Nagaland	53.	14-05755	M/s. Lumoking Agro-Tech Private Limited	Nagaland
27.	14-01943	M/s. Tekang Wood Industries Private Limited	Nagaland	54.	02-04181	M/s. Namsim Real Estates Private Limited	Assam
28.	02-04885	M/s. Karmabhumi Farming & Trading Private Limited	Assam	55.	02-03869	M/s. ANZ Real Estates Private Limited	Assam
29.	02-06674	M/s. Fastnet Marketing Private Limited	Assam	56.	02-03878	M/s. Crystal Wire Base Communication Private Limited	Assam

1	2	3	4	1	2	3	4
57.	14-02030	M/s. Purbanchal Wood Industries Private Limited	Nagaland	86.	02-02016	M/s. Suneer Private Limited	Assam
58.	02-02958	M/s. Abhinandan Housing Finance India Limited	Assam	87.	02-04932	M/s. Royal Estates Private Limited	Assam
59.	02-01757	M/s. Assam Cane Dealers Private Limited	Assam	88.	02-02851	M/s. Assam Health Care and Diagnostic Private Limited	Assam
60.	02-4215	M/s. Excel Ventures Private Limited	Assam	89.	02-02588	M/s. Rahi Leasing and Finance Company Limited	Assam
61.	19-03116	M/s. Tripureswari Rubber Private Limited	Tripura	90.	02-05995	M/s. Bhagabaty Agro Products Private Limited	Assam
62.	02-04533	M/s. Skyline Projects and Builders Private Limited	Assam	91.	02-04799	M/s. Hanoos Tea Company Private Limited	Assam
63.	14-02041	M/s. Apex Timbers Private Limited	Nagaland	92.	02-02089	M/s. M. B. Investments Private Limited	Assam
64.	02-06165	M/s. R I Blossom Private Limited	Assam	93.	02-01734	M/s. Plywood & Industrial Consultants Private Limited	Assam
65.	02-01908	M/s. Mayur Plywood Industries Private Limited	Assam	94.	02-04807	M/s. Sonitpur Trading Co. Private Limited	Assam
66.	02-02962	M/s. Hi-tech Electrodes Private Limited	Assam	95.	02-01930	M/s. Gajanand Flatex Private Limited	Assam
67.	02-04527	M/s. Sarala Hospital Private Limited	Assam	96.	02-06620	M/s. Premium Breweries Private Limited	Assam
68.	02-00953	M/s. Shree Dhanuka Mills Private Limited	Assam	97.	02-03915	M/s. Urvashi Polymers Private Limited	Assam
69.	02-03191	M/s. Datamation Services Private Limited	Assam	98.	02-04636	M/s. Salganga Agro Farms Private Limited	Assam
70.	02-01745	M/s. Assam Isolators Private Limited	Assam	99.	02-03104	M/s. Silchar Ispat Udyog Private Limited	Assam
71.	02-02805	M/s. Brahmaputra Commercial and Leasing Private Limited	Assam	100.	02-04219	M/s. Assam Albatross Estate & Finance Limited	Assam
72.	02-04882	M/s. Pleasant Hill Construction Private Limited	Assam	101.	02-03585	M/s. Neo Allied Traders Private Limited	Assam
73.	02-06320	M/s. Halcyon Real Estate Private Limited	Assam	102.	23-04110	M/s. Mansai Wood Products Private Limited	Arunachal Pradesh
74.	02-05346	M/s. Debsons Jute Company Private Limited	Assam	103.	02-5056	M/s. S S R Services Private Limited	Assam
75.	02-04731	M/s. Rupa Mushroom Private Limited	Assam	104.	02-05363	M/s. Florence Tea & Agro Products Private Limited	Assam
76.	02-04320	M/s. C R M Securities Limited	Assam	105.	02-03952	M/s. Bilmore Construction Private Limited	Assam
77.	02-04321	M/s. Goodage Securities Limited	Assam	106.	14-02028	M/s. Plycraft Industries Private Limited	Nagaland
78.	02-04382	M/s. Hydex Financial Services Limited	Assam	107.	23-01988	M/s. Tumba Timber Industries Private Limited	Arunachal Pradesh
79.	02-04384	M/s. Hydex Leasing Limited	Assam	108.	02-01899	M/s. Wizard Cold Storage Private Limited	Assam
80.	02-04385	M/s. Hydex Investment Limited	Assam	109.	02-03134	M/s. Prakash Lamp Private Limited	Assam
81.	02-04384	M/s. Baba Securities Limited	Assam	110.	13-04614	M/s. Pala Cement Private Limited	Meghalaya
82.	02-04386	M/s. Baba Capital Market Limited	Assam	111.	02-02735	M/s. Goodman Laboratories Private Limited	Assam
83.	02-03194	M/s. Indus Trade and Finance Limited	Assam	112.	14-06459	M/s. Saras Millenium Technology Private Limited	Nagaland
84.	02-04252	M/s. Pioneer Petro Drill Services Private Limited	Assam	113.	14-06170	M/s. Saras Tours and Travels Private Limited	Nagaland
85.	02-04947	M/s. Karanabumi Motors and Travels Private Limited	Assam				

1	2	3	4	1	2	3	4
114.	12-02968	M/s. Khundrakpam Finance Private Limited	Manipur	143.	14-04900	M/s. Jain Banari Surveyors and Consultants Private Limited	Assam
115.	13-01663	M/s. Meghalaya Wires Limited	Meghalaya	144.	02-0555	M/s. Ashirwad Limited	Assam
116.	02-06402	M/s. R P C Soft wire Private	Assam	145.	02-05959	M/s. Carewell Polyclinic & Diagnostic Centre Private Limited	Assam
117.	14-06551	M/s. Saras Azad Transport (India) Private Limited	Nagaland	146.	02-03641	M/s. SKB Agencies Private Limited	Assam
118.	14-06476	M/s. Saras Roadways Private Limited	Nagaland	147.	02-00485	M/s. Jayanti Private Limited	Assam
119.	14-06537	M/s. Amber Fuels Technology Private Limited	Nagaland	148.	14-02904	M/s. Kambari Forest Products Private Limited	Nagaland
120.	02-02569	M/s. Speedex India Private Limited	Assam	149.	02-04099	M/s. Nilachal Trade and Ware Private Limited	Assam
121.	02-03241	M/s. Frontier Construction and Associates Private Limited	Assam	150.	13-02784	M/s. Indian Livewires Private Limited	Meghalaya
122.	02-03241	M/s. Atlas Transport Co. (India) Private Limited	Assam	151.	14-05834	M/s. Sudha Automobiles Private Limited	Nagaland
123.	02-023397	M/s. J. C. B. Constructions Private Limited	Assam	152.	14-04575	M/s. Khandelwal Financial Services Private Limited	Nagaland
124.	02-00546	M/s. Kamakhya Rice Mill & Industries Private Limited	Assam	153.	14-03152	M/s. AV-Tech Associated Consultants Private Limited	Nagaland
125.	02-01766	M/s. Consultants (India) Private Limited	Assam	154.	14-01769	M/s. Nagaland Plastic Private Limited	Nagaland
126.	02-04589	M/s. Prashanti Finance & Investment Private Limited	Assam	155.	12-02393	M/s. Eastern Agro Farms Private Limited	Manipur
127.	02-02065	M/s. G. D. Projects & Marketing Co. Limited	Assam	156.	13-06236	M/s. Saroda Digitech Private Limited	Meghalaya
128.	02-02095	M/s. Lokopriya Finance and Industries Investment (India) Private Limited	Assam	157.	02-03022	M/s. Treelines Product Private Limited	Assam
129.	02-04076	M/s. Standard Coatings Private Limited	Assam	158.	14-01823	M/s. Langtho Valley Woodcrafts Private Limited	Nagaland
130.	14-02042	M/s. Nagaland Wood Industries Private Limited	Assam	159.	02-01277	M/s. Beverages & Food Products Private Limited	Assam
131.	02-04919	M/s. Glazing Granites Private Limited	Assam	160.	02-04021	M/s. Manas Commercial Co. Private Limited	Assam
132.	02-03941	M/s. B. R. Hospital Private Limited	Assam	161.	02-03807	M/s. Hilly Plus Fabrics Private Limited	Assam
133.	02-03830	M/s. Kamakhya Lamp Products Private Limited	Assam	162.	14-02090	M/s. Arun Forest Products Private Limited	Nagaland
134.	02-04238	M/s. DPK Securities Limited	Assam	163.	02-05970	M/s. Swastika Gift Services and Trading Private Limited	Assam
135.	14-02509	M/s. Eastchem Private Limited	Nagaland	164.	13-05756	M/s. Polestar Finance and Investment Co. Private Limited	Meghalaya
136.	02-01716	M/s. Rajhans Travels Private Limited	Assam	165.	13-03611	M/s. Pharia Finance and Investment Private Limited	Meghalaya
137.	02-04240	M/s. PKD Securities Limited	Assam	166.	02-02574	M/s. Trans Udyog Private Limited	Assam
138.	02-03240	M/s. Transport Traders of India Private Limited	Assam	167.	14-05797	M/s. R. G. Trading Co. Private Limited	Nagaland
139.	02-01956	M/s. Associate Properties & Investments Private Limited	Assam	168.	02-03411	M/s. Haroocharai Plantations Private Limited	Assam
140.	02-01659	M/s. Company Consultants Private Limited	Assam	169.	02-03410	M/s. Barooah Enterprises Private Limited	Assam
141.	14-02391	M/s. Nagaland Agro Industries Private Limited	Nagaland				
142.	02-02796	M/s. Nema Private Limited	Assam				

1	2	3	4	1	2	3	4
170.	02-03444	M/s. Ranga Agencies Private Limited	Assam	197.	02-01905	M/s. Liot Printers & Publishers Private Limited	Assam
171.	02-03498	M/s. Thrideya Poly Enterprises Private Limited	Assam	198.	13-06289	M/s. D. Shyrkan Saw & Veneer Mills Private Limited	Assam
172.	02-03692	M/s. Surbek Trading and Investment Private Limited	Assam	199.	14-02141	M/s. Mon Wood Products Private Limited	Nagaland
173.	14-01687	M/s. Nagaland Trade & Agencies Private Limited	Nagaland	200.	13-02070	M/s. STS and Associates Private Limited	Meghalaya
174.	14-03193	M/s. Hills Plywood Udyog Private Limited	Nagaland	201.	02-02395	M/s. Associated Builders & Contractors (Assam) Private Limited	Assam
175.	02-02519	M/s. Santi Transport Private Limited	Assam	202.	02-05272	M/s. Nezone Minerals Private Limited	Assam
176.	14-02073	M/s. Amarjyoti Veneer & Saw Mill Private Limited	Nagaland	203.	02-04036	M/s. Frontier Ply Private Limited	Assam
177.	02-04216	M/s. Interlink Credit Capital Private Limited	Assam	204.	02-03753	M/s. Kamali Finance Co. Private Limited	Assam
178.	02-01750	M/s. Santhal Pargana Iron & Steel Co. Private Limited	Assam	205.	02-04176	M/s. Assam Valley Power Corporation Limited	Assam
179.	02-03455	M/s. Eastern Windoors Private Limited	Assam	206.	02-04017	M/s. Jasuda Tea Private Limited	Assam
180.	02-02481	M/s. Green Valley Ice Traders Private Limited	Assam	207.	13-05938	M/s. Venketeswara Carbide Private Limited	Meghalaya
181.	02-02586	M/s. Lohut Trade & Enterprises Private Limited	Assam	208.	02-03909	M/s. Vardhman Marketing Consumers Private Limited	Assam
182.	58-04856	M/s. Kolodyne Kombine Private Limited	Mizoram	209.	02-02822	M/s. North Kamrup Roller Flour Mills Private Limited	Assam
183.	14-02080	M/s. Wekong Wood Products Private Limited	Nagaland	210.	02-04913	M/s. Green Prix Plantations Private Limited	Assam
184.	02-05444	M/s. Manas Textile Private Limited	Assam	211.	02-03227	M/s. Gramin India Finance & Investment Limited	Assam
185.	23-03847	M/s. Seijosa Saw and Veneer Mills Private Limited	Arunachal Pradesh	212.	02-01778	M/s. Subhash Industries Private Limited	Assam
186.	02-05612	M/s. Manas Tea Private Limited	Assam	213.	02-04362	M/s. Balajee Securities Private Limited	Assam
187.	13-02775	M/s. Tea Chem Private Limited	Meghalaya	214.	02-03238	M/s. Associated Hospitals Limited	Assam
188.	02-04749	M/s. Guwahati Oil Field Chemicals Private Limited	Assam	215.	02-02137	M/s. Assam Farmer Friends Limited	Assam
189.	02-04023	M/s. Asdee Farm Private Limited	Assam	216.	02-03673	M/s. Contemporary Technical Services Private Limited	Assam
190.	02-04794	M/s. Nezone Ex-serviceman Security Services Private Limited	Assam	217.	02-01210	M/s. Emcos Sales (India) Private Limited	Assam
191.	02-04106	M/s. Uttar Cachar Finance Private Limited	Assam	218.	14-01743	M/s. Konyak Veneer & Saw Mills Private Limited	Nagaland
192.	02-02356	M/s. Sristee Commercial Private Limited	Assam	219.	14-01742	M/s. Nagaland Veneer & Saw Mills Private Limited	Nagaland
193.	02-02729	M/s. Kamrup Finance Co. Private Limited	Assam	220.	14-02085	M/s. North Eastern Veneer Products Private Limited	Nagaland
194.	02-02091	M/s. Ganga Prasad Noptray Private Limited	Assam	221.	23-01985	M/s. Namding Veneer & Saw Mills Private Limited	Arunachal Pradesh
195.	02-05093	M/s. Novin Consultancy Services Private Limited	Assam	222.	02-01747	M/s. Amar Chitram Assam Private Limited	Assam
196.	02-04853	M/s. Shiv Shambu Marketing Private Limited	Assam	223.	02-01678	M/s. Union Carbon Black Limited	Assam

1	2	3	4
224.	02-01130	M/s. Print Craft Private Limited	Assam
225.	14-02320	M/s. Virgin Forest Products Private Limited	Nagaland
226.	02-02564	M/s. Patkai Mining Engineering Co. Private Limited	Assam
227.	02-01691	M/s. Unidus Agents & Distributors Private Limited	Assam
228.	02-02254	M/s. Indo Feed Mills Private Limited	Assam
229.	02-02196	M/s. Victory Farming Private Limited	Assam
230.	02-02197	M/s. We Three Tea Co. Private Limited	Assam
231.	02-02067	M/s. K. G. Enterprise Private Limited	Assam
232.	02-02632	M/s. Mazengah Tea Co. Private Limited	Assam
233.	02-03371	M/s. Magnum Fiscal Services Private Limited	Assam
234.	14-02167	M/s. Blue Hill Lumberers Private Limited	Nagaland
235.	14-02115	M/s. Green Valley Veneer Private Limited	Nagaland
236.	14-02043	M/s. Naginimara Wood Craft Private Limited	Nagaland
237.	02-04019	M/s. Gigabyte Computers Private Limited	Assam
238.	23-02866	M/s. Patkai Herbals Private Limited	Arunachal Pradesh
239.	23-02867	M/s. Sheykhur Viswanath Private Limited	Arunachal Pradesh
240.	14-02236	M/s. Tiru Plywood Products Private Limited	Nagaland
241.	13-01035	M/s. Osswell Giri and Co. Private Limited	Meghalaya

K. ANAND RAO
Registrar of Companies
N. E. Region

In the matter of Companies Act, 1956 and in the matter of following Companies

Cuttack, the 19th July 2005

No. ROC/SES/05/560 (3)/1028.—Notice is hereby given pursuant to Sub-Section (3) of Section 560 of the

Companies Act, 1956 that the expiration of three months from the date hereof, the name of the following companies unless cause is shown to the contrary will be struck off from the Register and the said companies will be dissolved :—

Sl. No.	Co. No.	Name of the Companies
1.	15-002016	M/s. Hotel Rahi Resorts Private Limited
2.	15-005209	M/s. Kanak Manjari Institute of Technology Private Limited
3.	15-005950	M/s. Bahalia Tourism Advertising and Promotion Private Limited
4.	15-002230	M/s. Sullagna (India) Private Limited
5.	15-005651	M/s. Radha Gobindo Hotel Private Limited
6.	15-005754	M/s. Mx-Infotech Private Limited
7.	15-006501	M/s. Millenium Bricks Private Limited
8.	15-006817	M/s. Fly Space Marketing Private Limited
9.	15-005318	M/s. Akar Builders Private Limited
10.	15-002423	M/s. Shakti Craft Private Limited
11.	15-005889	M/s. Chandra Swechhavas Private Limited

D. K. SINGH
Asstt. Registrar of Companies
Orissa

In the matter of Companies Act, 1956 and of the M/s. Kaithamana Chitty Funds Private Limited

Cochin-682021, the 25th May 2005

No. 09-06273/U/S-560(3)/3088/2005—Notice is hereby given pursuant to sub section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that the expiration of three months from the date hereof the name of the company M/s. Kaithamana Chitty Funds Private Limited unless cause is shown to the contrary will be struck off from the register and the said company will be dissolved.

SANJAY SUD
Asstt. Registrar of Companies
Kerala

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित
एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2005।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD AND
PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2005.